

31st January 2024

Corporate Relationship Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C-1, Block G, Bandra – Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051

Script Code: 543981

Symbol: RRKABEL

Sub.: Newspaper advertisement pertaining to Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended on 31st December, 2023.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement pertaining to unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023. The advertisements were published in Loksatta (Marathi), Jansatta (Hindi) and Financial Express (English) on January 31, 2024. This information will also be hosted on the Company's website, at www.rrkabel.com.

You are requested to kindly take note of the same.

Thanking you,

Yours sincerely,

For R R KABEL LIMITED

Himanshu Navinchandra Parmar Company Secretary and Compliance officer M. No. – F10118

R R KABEL LIMITED | RR Global Company | www.rrkabel.com | CIN NO.: U28997MH1995PLC085294

Regd. Off.: Ram Ratna House, Utopia City, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 013 • T : +91-22-2494 9009 / 2492 4144 • F : +91-22-2491 2586 • E : mumbai.rrkabel@rrglobal.com Corp. Off : Alembic Business Park (W), Ground Floor, Bhailal Amin Marg, Gorwa, Vadodara - 390 003. T : +91-265-6830 800 / 7383 825 234 • E : vadodara.rrkabel@rrglobal.com

IT'S NOT A BURGER IT'S A WHOPPER

(Figures-Rs. in million except per share data

मुंबई



प्रतिप आचार्य

मुंबईः विरोधी पक्षांच्या ११ आमदारांची विकासनिधी देण्याची मागणी मंबई शहर जिल्ह्याचे गलकमंत्री दीपक केसरकर आणि उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंजूर करून मुंबई महापालिकेकडे पाठवली नसल्याचे 'दि इंडियन एक्स्प्रेस'कडे असलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. काही विरोधी आमदारांनी तर मार्च २०२३च्या पारंभीच निधी देण्याची विनंती केली होती, मात्र ती अद्याप प्रलंबित आहे.

भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गठाप आणि शिपसना (शिप गट) आमदारांच्या विनंत्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन पालकमंत्र्यांनी मंजूर केल्या आहेत. त्यापैकी काही विनंत्या एका आठवट्यात मागी लावण्यात आल्या कोठपड्यातमाना सावण्यात जारपा होत्या. शिवसेनेचे तीन आणि भाजपच्या एका आमदाराने तर थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहिले होते, तर इतरांनी पालकमंत्र्यांकडे अर्ज केला होता. पालिकेने गेल्यावर्षी १६ फेब्रुवारीला मंजूर केलेल्या विशेष फेब्रुवाराव्य मजूर कलाल्या विराग धोरणांतर्गत नागरी कामांसाठी आमदारांना निधी मंजुरीचे आणि प्रस्ताव पालिकेकडे पाठवण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले होते. हे धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत, आमदारांना पालिकेचा निधी देण्याची तरतद नव्हती

निधीलामार्थी सत्ताधारी...

🗖 संगलप्रभाव लोहा (भाजप) सलबार हिल मुंबई उपनगर जिल्हा, पालकमंत्री) : पलिका प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना २३ जून २०२३ रोजी पत्र, ३० कोटींच्या निधीची मागणी. २८ जूनला २४ कोटी मंजूर.

- मिहिर कोटेचा (भाजप, मुलुंड) : पालकमंत्री लोढा यांच्याकडे ११ मे २०२३ रोजी २६.३४ कोटींची मागणी. लोढांचे २२ मे रोजी प्रशासक चहल यांना पत्र. २६ कोर्टीचा निधी तातडीने देण्याचे निर्देश. कोटेचा यांना ८० टक्के निधी मंजूर.
- अतुल भातखळकर (भाजप, कांदिवली) :
 ९ मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री लोढा यांना पत्र. २४.२७ कोटींची मागणी. लोढा यांचे चहल यांना २६ मे रोजी पत्र. चहल यांचे स्थानिक विभाग कार्यालयाला २ जुनला पत्र.
- 🔳 सदा सरवणकर (शिवसेना, शिंदे गट, दादर) : मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना १८ जुलैला पत्र. ३५ कोर्टीची मागणी (५ ऑगस्टला महापालिकेकडून २८ कोटी मंजूर.
- 🛛 राहुल नार्वेकर (भाजप, कुलाबा) : ३५.८५ कोटींचा प्रस्ताव मंत्री केसरकर यांच्याकडन १८ जुलै रोजी मंजूर. महापालिकेकडून ७ ऑगस्टला २८ कोटी रुपये. नार्वेकर यांनी ज्या दिवशी निधीचा प्रस्ताव पाठवला त्याच दिवशी मंत्री केसरकर यांनी तो मंजूर केला

निधीवंचित विरोधक...

- 🗖 रवींद्र वायकर (शिवसेना –ठाकरे गट, जोगेश्वरी पूर्व) : २३ जून २०२३ रोजी पालकमंत्री लोढा यांना पत्र, १६ कोटींची माराणी दोन महिन्यांनंतरही निधी न मिळाल्याने २६ ऑगस्टला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि चहल यांना पत्र
- **= अजय चौधरी** (शिवसेना-ठाकरे गट, शिवडी): २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंत्री केसरकर यांना
- पत्र. ६८.७५ कोटींची मागणी अद्याप प्रलंबित 🗖 वर्षा गायकवाड (काँग्रेस, धारावी) : मार्च
- २०२३मध्ये मंत्री केसरकर यांना पत्र. २६.७१ कोटींची मागणी. निधीची अद्याप पतीक्षाच
- 🗖 रईस शेख (समाजवादी पक्ष, भिवंडी, माजी नगरसेवक) : चार कोटी सहा लाखांची मागणी. चहल आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी पत्र. निधी नाही.



"

सहा-सात महिन्यांहून अधिक काळ लोटला मी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी ते मार्चदरम्यान मंत्री केसरकर यांना पत्रे तरीही आम्हाला निधी लिहून मूलभूत नागरी कामांसाठी मिलालेला नाही णलकसंञ्यांत्य पोलकमञ्चाच्या मंजुरीशिवाय निधी न देणे हा सत्ता आणि महापालिकेच्या निधीची मागणी केली होती. पण आजपर्यंत मला एक रूपयाही मिळालेला नाही नागरिकांच्या पैशाचा दुरूपयोग आहे.

- रवींद्र वायकर, आम्बर, - वर्षा गायकवाड, आम्बर, शिवसेना, ठाकरे गट. कोंगेय

केवळ सत्ताधारी आमदारांनाच विकासनिधी

नस्ती क्र. शासन पत्र क्र. मर्वअ-२०२२/प्र.क्र.३०३/सेवा-

(पान १ वरून) २०२३मध्ये केला. या धोरणानसार डिसेंबर २०२३पर्यंत सत्ताधारी युतीच्या २१ आमदारांना निधी देण्यात आला, मात्र विरोधी पक्षांच्या आमदारांन मात्र वंचित ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी (शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेस) ११ आमदारांनी

जाहिरात क. ०१/२४

पदसंख्या

सर्वसाधारण महिला खेळाड

गर्या

पदसंख्य

महिला खेळाड टिव्यांग

असाध

ादण्याः रोईल.

स्थळः मुंबई

दिनांकः ३०,०१,२०२४

मर्वमाधारण

एक्स्प्रेस'ने प्रत्येक आमदाराशी निधीची मागणी केली होती. मात्र, व्यक्तिगतरीत्या संपर्क साधला. माहिती अधिकारात 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या हाती आलेल्या अधिकृत नोंदींनुसार त्यांना निधी पंरतु, विरोधी पक्षांना निधी मंजूर केला गेला असता तर धारावीतील मिळालेला नाही. विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी किती जणांनी नाल्यांच्या दुरुस्तीची कामे, शिवडी येथील उद्यानाचे सुशोभीकरण किंवा सत्यनारायण चाळीत पेव्हर ब्लॉक निधीसाठी अर्ज केला होता आणि किती जणांना निधी मिळाला याची खातरजमा करण्यासाठी 'इंडियन बसवण्यासह अनेक विकासकामे मार्गी लागली असती. कारण ही कामे

महाराष्ट शासन

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ पदभरती

स्वतंत्र निवड मंडळ

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (सातवा वेतन आयोग वेतनस्तर-२० वेतनश्रेणी रु. ५६१००-१७७५००) कार्य आवाकार्स गट-अ (सातवा दाना आवाग दानास्तर-२० वतनप्रणा) ह. ५२२००-२७७५००२) संद्यागतिलि १७२२ रिस्त पर्यात्री भारत गा संवर्गतिल वेबकॉव अफिसो वीप्रणांतील १७२१ रिस्त पर्यात्री भरती गा संवर्गतिल वेबकॉव अफिसो या पदवरिण स्तर्गतांस्ता पत्र अरोदयांकादूर अने मार्वाक्ष्यात्र वेत आहेत. माराहण देककॉव क आंगल सेवा स २४ या संवर्धात्रीक व्यक्ति अफिसो या प्रवास्त सरक सेवेस प्रस्ताते करण्यातार्ट http://arogya.maharashtra.gov.in या संकेतस्वळावर अर्जाचा ममुना उपलब्ध करून देष्यात आला आहे.

स्वत जागाव प्रवयानहाव स्पताल आरहणाव विवरणपत्र वाल्डीआप्राणी आहे : १२० ६४ ३२ २५ ३६ २५ १२ १६८ १४३ २० ९३९ १६ ३० १४ १२ १७ ११ १२ ४८ ६६ १४० १३१ ९ ५ २ २ ३ २ २ ३ १ २ ३ ११ २३ ७२ O.L.- One Leg (upto 50% disability will be able to walk using walking aid, dominant extremity not involved.)

एकूण १४ पदे

एकूण ३ पदे

। (टीप: उपरोवत नमूद केल्यानुसार एकूण १७२९ पदांपैकी ६९ पर्व दिव्यांग व्यवनींसाटी राखीव येत असून ही पदे अस्थिव्यंग (एका पाया टेव्यांग) सेवगांसाटी पदे आर्शित टेवण्यात आली आहेत. तसेच उमेदवार ज्या प्रवर्गाचा आहे त्या प्रवर्गात दिव्यांगाचे ते पद दर्शावण्या

मदाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा घट-' अ' या संवर्गतील ''नैककीत अधिकारी (एस-२०)'' या पतवार सरव्यमेंवेने पदभार करण्कसाठी <u>http://arogga.nu.harashtra.gov.in</u> या संकेतस्यव्यवर संपूर्ण जाहिगत/ अर्जाव्यवत्वी माहिती उपछव करून देश्यात आली आहे. व्यानुवार उमेरवारीती <u>https://www.morrecruitment.maha-arogya.com</u> संतेतस्यव्यवर सात्र अर्थ पूर्णयो ONLING पद्धती भराष्ट्रवारी भराष्ट्रवारी के हिंतर स्वरूप प्रवासी अंत कर हिंक्या उसेवसार्गनी वेतनवेली, पत्रता, बचोमयांत, अर्थ राष्ट्रक, सूचना, निबर्डीय निकम इत्यादी तपीरलमाठी सार संकेतस्वरवल भ

धावा. विस्तृत जाहिरातीत नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन (Online) पद्धतीने **दिनोक ०१.०१.२०२४ रोजी सकार्ळ** १९.०० **ते दिनोक १५.०२.२०२४ रोजी रात्री ११.५९ याजेपर्यंत** अर्ज सादर करावेत. निर्धारित दिनोक व येत्रेवेतर तसेच टपालने अथवा अन्य मागनि प्राप्त अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

पदलख्याः (अ) एम.बी.बी.एस. व पदव्युत्तर पदवी/ पदविका (एकृण- १४४६ पदे)

(ब) बी.ए.एम.एस. व पदव्युत्तर पदवी/ पदविका (एकूण- २८३ पदे)

विरोधी आमदारांच्य मतदारसंघांतील आहेत. विकासनिधी वाटपातील भेदभावासंदर्भात महापा संदर्भात महापालिका इक्बालसिंह चहल आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याशी संपूर्क साधण्याचा प्रयत्न इंडियन एक्स्प्रेसने केला असता ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

ant brands asia	

restaurant brands asia limited CIN: L55204MH2013FLC249986

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 20

		c	Consolidated Financial	Results	
Sr.		For the Que	For the Nine months ende		
No.	Particulars	December 31, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1	Total Income from Operations	6,042.27	5,263.39	18,399.14	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(399.37)	(558.91)	(1,446.39)	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(399.37)	(558.91)	(1,446.39)	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(399.37)	(558.91)	(1,446.39)	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	(442.98)	(574.05)	(1,528.34)	
6	Paid up Equity Share Capital	4,963.60	4,944.34	4,963.60	
7	Other Equity				
8	Earnings per share (not annualised for the quarter) (Face value of Rs. 10/- each)				
	a) Basic (in Rs.)	(0.73)	(1.02)	(2.68)	
	b) Diluted (in Rs.)	(0.73)	(1.02)	(2.68)	

The above financial results, as reviewed and recommended by the Audit Committee, have been approved by the Board of Directors at its b)

The doover Interface of the Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the key items of Standolone Financial Results are given below: [Figures Rs. in Million] (Figures Rs. in Million)

				Ter me me memo eneo		
Sr. No.	Particulars	December 31, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023		
140.		Unaudited	Unaudited	Unaudited		
1	Turnover	4,454.21	3,697.80	13,210.10		
2	Loss Before Tax	(64.07)	(112.05)	(379.00)		
3	Loss After Tax	(64.07)	(112.05)	(379.00)		
e	Loss After Tax above is an extract of the detailed format of mber 31, 2023 filed with the Stock Exchanges lations, 2015. The full format of the Unaudited F	Unaudited Consolidated Final under Regulation 33 of the Si	ncial Results for the qu EBI (Listing Obligations	arter and nine months er and Disclosure Requireme		

(www.burgerking.in).

Sd/

Date: January 29, 2024 Place: Mumbai

c)

Registered Office: Unit Nos. 1003 To 1007, 10" Floor, Mittal Commercia, Asan Pada Road Website: www.burgerking.in | Tel No.: +91 22 7193 3000 | E-m ıd, Chimatpada, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 059 **mai**l: investor@burgerking.in

आर आर काबेल लिमिटेड (CIN: U28997MH1995PLC085294)

नोंद कार्यालय: राम रत्ना हाऊस, ओॲसिस कॉम्प्लेक्स, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई-४०००१३

दूरध्वनी: + ९१-२२-२४९४ ९००९ / २४९२ ४१४४. फॅक्स: + ९१-२२-२४९१ २५८६. ईमेल आयडी : investorrelations.rrkl@rrglobal.com

३१ डिसेंबर २०२३ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊमाही करिता एकल आणि एकत्रित अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचे सार

				एकल					एकत्रित		
अ		संपलेली	तिमाही	संपलेले ब	नऊ महिने	संपलेले वर्ष	संपलेली	तिमाही	संपलेले व	নক্ত महिने	संपलेले वर्ष
क्र.	तपशील	39.92.2023	39.99.9998	39.92.2023	39.92.2022	39.03,2023	39.92.2023	29.92.2022	39.92.2023	29.92.2022	39.03.2023
		(अलेखापरिक्षित	(अत्मेद्यागरिक्त) (सूच्यनाviiपद्य)	(अलेखापरिक्षित	(अलेखापसिक्षित (सूचना VII पहा		(अलेखापरिक्षित)	(अलेखापरिक्षित) (सूचना vii पहा)	(अलेखापरिविस)	(लेखापरिश्रित)	(लेखापरिक्षित)
۹.	प्रचलनातून एकूण उत्पन्न (निव्वळ)	958995.30	१४८३२५.७८	866306.99	890329.90	943348.09	ବ୍ୟ୫୨୦ର୍. ३୦	986329.06	866306.99	४१०३२७.९०	યદ્વકકદ્વક.૦વ
۹.	निव्वळ नफा (करापूर्वी, अपबादात्मक आणि/ किंवा असाधारण वस्तु)	९५८८.७१	९३३२.५२	29989.88	૧૬૭૪૨.૧૦	24408.08	९४९१.९८	૧લ૩૪.વદ્ય	૩૦૦૩૫.૬૭	୩६७७୦,୦୦	૨૫૫૧૬.૧૫
3,	निव्वळ नफा (करापूर्वी, अपवादात्मक आणि/ किंवा असाधारण वस्तूंनंतर)	१ ७८८.७१	૬૨૨૨.૫૨	29989.88	૧૬૭૪૨.૧૦	29908.08	९४९१.९८	૧૬૩૪.૬૬	૨૦૦૨૫.૬૭	95,990.00	૨૬૬૧૬.૧૬
8.	करानंतर निव्यळ नफा (कंपनीच्या मालकांचे भाग) अपवादात्मक आणि/ किंवा असाधारण वस्तूंनंतर)	७०९२.५७	& ₹ 89.39	29698.26	92830,40	१८८९२.८५	৫০९৭.८৪	७१४३.३५	२१९४०.५१	92896.80	१८९८७.२६
ч.	कालावधीकरिता एकूण व्यापक उत्पन्न (कंपनीच्या मालकांचे भाग)	હાકહલ. હર	યહ્ય ૧.૮૫	23900.69	१४०१९.५०	૨૦૪૧૬.૦૭	693 9.30	હર્યર,હર	24966.03	१३१०५.६०	20299.36
6 ,	पेड अप समभाग भांडवल (र ९/- प्रति भाग दर्शनी मूल्य)	લહ્ટર૦.૧૪	2392.89	अ६ ४०.१४	2392.81	४७८४.८२	५६४०.९४	2392.89	अ६४०.९४	2392.89	४७८४.८२
9 ,	ताळेबंद तारखेस पुनर्मूल्यांकित राखीव वगळुन राखीव					९५३३९.९३					୧ ସ&&.98
٤.	प्रति भाग मिळकत (तिमाही आणि नऊ महिन्यांसाठी वार्षिक केलेले नाही.)										
	- बेसिक (र्रे मध्ये)	6.3 9	ઘ.૨૭	૧૬.ઙઘ	99.95	919.09	6.39	6.83	99.68	99.22	90.00
	- डायल्यूटेड (रैं मध्ये)	6.33	6,23	99.99	99.90	96.96	6.38	6.82	98.98	99.95	99.09

ii)

iii)

iv)

(1) ७, २००० (1) ७, २००० (3) ४२ २००२, ८६ ड्रीकटी डीमर मलेकी ७,१३७ किमतीचे, कर्मणाने कोटा मध्ये नगान इछ्यू, २० १९८२ २००० (BSE) बस्यूपीचार झाले आठत. कंगलीन आणीको संवीध ज्यां स्वराज्य आग डिकी करणाव्या आगकारकांक्य आग वाराग्या आग्रज्ञ प्रमाणित केले आठ. ३० सार्यद २०२३ धार्च कंगली १९, १५४, १४ संव्युष्टिंग जीतांक्यना डोमर जोगा डिकी करणाव्या आगकारकांक्य आग वाराग्या आग्रज्ञ प्रमाणित केले आठ. ३० सार्यद २०३४ धार्च कंगलीनी संव्युण्ट संव्युष्टिंग जीतांक्यना डोमर जोगा डिकी करणाव्या आगकारकांक्य आग वाराग्या आग्रज्ञ प्रमाणित केले आठ. ३० सार्यद २०३४ धार्च कंगलीची खुरण ७, १५४, १४ संव्युष्टिंग जीतांक्या प्रदारमा आवळ रखाव्या, १९५१ भया करम १३७ अंतर्गत कंगलांग्या काझी आगातत आगि कही संचालक आगि कर्मचायाय्या निवासस्थानी ही गांच लाक संवर्त, कंगलीनों प्राय प्रतसाम आवळ रखाव्या, १९५१ भया करम १३७ अंतर्गत कंगली कास्या शांग कही संचालक आगि कर्मचायाय्या निवासस्थानी ही गांच लाक संवर्ध कंगली सां परिणमामाबाम प्रायिक विभागव्युत कांगतेली संपारण प्राय झालेते नाही, त्यामुंह, या क्लिंच किरा होगाय (परिणम, २३ प्रसंत २०३४ दोत्री संतर्गत नहीं, वार्याप्र संवर्ध कंगती प्राय परिणमामाबाम प्रायिक विभागवेला कंगी कांगता वाही, आगि त्यानुस्त र अप्ते संतर संतर्ग किंगती हा वा परिणमानांक प्रायिक विभागति कंगलात्या संवर्ध स्वराध स्वराय संतर्गत, संतर्गत्वा कांगति कर्मचा संतर्ग केते नाही, त्याप्र यात्र सांती कंगति कां परिणमामाबाम प्रायिक विभागति कंगलात्या संवर्ध कं प्राया संतर्गत के डिपास परिणमा, २३ प्रसंत र, लिया ताल्यो कंगती नाही, ताचीर, स्वराय्य सिवीम विभय किल संतर्गताल कांग्रीक्र वार्यात्या के कांग्राह सांत्र संतर्गत प्रायामां आंगत लाही आगि त्यानुत्या २३ डिसंत २०३४ वाती संतर्गता ताल्यी विश्व किंगती क्रां संतर्गताल कामयोजन वार्याया क्रिस्ट के सांत्र संतर्गता संतर्गता का प्राया संतर संतर्गत के वार्या स्वर्या संतर्य क्राया संतर्गता क्रांत तात्र आगि स्वर्य संतर्गता संतर्य क्राय संतर संतर्गता संतर्गती कंगता ता क्रांत संतर्गता संतर्गता संतर्य क्राया संतर संतर्ग संतर्ग के काम्य वार्य काम्य संतर्गता का सांत्र वार्य संतर्य संतर्य संतर संतर्य संतर संतर्य संतर २३ दिसंत २०२४ वाती संतर्य संतर संतर्ग संतर्य कंग्र संतर्य संतर्य संत्र संतर्य संतर्य संतर्य संतर्य संतर २४ संतर संतर्य v)

কলেজসংঘটনাক সোনএনৰ সান্ধনেৰ সান্ধনেৰ নাম কলোকান্ধ INDA 594-C 'জাৰবেটি লামন্দ্ৰ'ৰে নুমাতে হান এৱেনাৰে কবেতায়াকৰ বিধান আৰু নাম্পি কৰে মান্দ্ৰ কৰে নাম্পি কৰে মালি ২ ২৭ চিৰেন্দৰ ২০২২ খনৰ বিধানকৈ মালি লাম কৰে সান্দ্ৰ সান্দ্ৰবিধাৰে কেৰে বিধান নাম্পি কৰে মান্দ্ৰ কৰে নাম্পি কৰে মালি মনমন্দালতা মন্দ্ৰী আৰম্বনি বিধানি কিছল বিধান বিধানকৈ সান্দ্ৰ সাহৰ বিধানকৰ নাম্পি কৰে মান্দ্ৰ কৰে নাম্প কৰে নাম্প मंडळाने मान्यता दिली आहे परंतु कंपनीच्या खापरीक्षकांनी त्यांचे पुनराबलोकन केलेले नाही

रिता आणि त्य आर आर काबेल लिमिटेड स्वाक्षरी त्रिभवनप्रसाद रामेक

DIN: 00091375

ठिकाण : मुंबई दिनांक : २९ जानेवारी २०२४





स्वाक्षरी/-(वि. ल. लहाने) सहसचिव तथा स्वतंत्र निवड मंडळाचे सदस्य सचिव,

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई





লা: অন্য আৰু জানিদেই ("কান্যা")ই কলৈ আইআমেৰিল ছেজৰি নিৰ্বাব নিৰফৰ্, কাননী প্ৰতিনিয়ম ২০১২ আ কলে ৭২২ বা তথা অনুৰ্ভাৱনী কাৰ্ক কৈৰে। নাৰ্বাদিনে নিৰমাতত্ৰ অনুৰ্ভাৱনী আঁজি নিৰমাতত্ৰ অনুৰ্ভাৱনী নিৰমাত্ৰ কৰে নিৰমাত্ৰ সন্ধানিৰ নিৰমাতত্ব আৰু নিৰ্দেশ্য কৰে কৰে নাৰ্বাদি নিৰমাতত্ব সন্ধানিৰ নিৰমাত্ৰ সন্ধানি নিৰমাত নাৰ্বাদ নিৰমাত নাৰ্বাদ নিৰমাত নিৰমাত্ৰ সন্ধান নিৰমাত্ৰ সন্ধানি নিৰমাত্ৰ সন্ধানিৰ নিৰমাত নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ সন্ধানিৰ নিৰমাত্ৰ সন্ধান নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ সন্ধানি নিৰমাত্ৰ সন্ধান নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ সন্ধানিৰ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ সন্ধানিৰ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ সন্ধান নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰমাত কৰে নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ কৰে নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰমাত্ৰ নাৰ্বাদ নিৰমাত নাৰ্বাদ নিৰমাত নাৰ্বাদনাৰ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰমাৰ কৰে নাৰ্বাদ নাৰ্বাদনাৰ নিৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰ্বাদনাৰ্বাদ নিৰ্বাদ নিৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰ্বাদ কৰে নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদনা বৰাকনাৰ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদনা নাৰ্বাদ কৰে নাৰ্বাদ কৰে নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰ্বাদ নাৰ্বাদ নিৰ্বাদ নিৰ্বাদ নিৰ্বাদ নিৰ্বাদ নিৰ্বাদ নিৰ্বাদ নিৰ্বাদ নিৰ্বাদ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নাৰাৰ ব্য হে নাৰ্বাদ ন্বৰা হয় নে নাৰ্বাদ হে নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ নাৰ্বাদ হে নাৰ্বাদ হেলে নিৰ্বা কৰে নাৰ হে নে নাৰ্বা কৰে নাৰ্বাদ হে নেৰ নাৰ্বাদ কৰে নাৰ্বাদ নে নাৰ্ব (গাৰ বাদানাৰ নাৰ নাৰ নাৰাৰ কৰে নাৰা দেনে নিৰ্বা কৰে নিৰ্বা হৰুৰে ২০ ন গুনাৰ ব্য বিৰ্বা সম্বাদ নিৰ্বা কৰে নাৰ হে নে নাৰ বাৰ নাৰ বাৰ নাৰ বাৰ নাৰ বাৰ নাৰ বাৰ বাব নাৰ বৰ নাৰ বৰ নাৰ বাৰ বাব নাৰ বৰ নাৰ বৰ নাৰ বৰ নাৰ বাৰ বাৰ নাৰ বৰ নাৰ বাৰ

मुनव्वर पर आरोपपत्र जल्द संभव (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगी थी। फारूकी और चार अन्य को इस मामले में एक जनवरी

इंदौर, ३० जनवरी, (भाषा)।

(, 50 जा नफ,) मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू तो-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने आगोग में ज्ञाग्य कलाकार मुनव्वर फारूकी के मेल्य प्रदेश के इश्वर में एक लोधक्रम के भारत किर्नू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में हारय कलाकार मुनव्वर फारूकी के खिलाफ 2021 में दर्ज एक मामले में जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपपत्र जल्द ही दायर किया सकता है।

अभियोजन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने 29 जनवरी 2021 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए

जबकि

शिवकुमार ने राज्यसभा सीट से जुडी अटकलों को खारिज किया

बॅगलुरु, ३० जनवरी, (भाषा) ।

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख डीके शिवकुमार ने मंगलवार को मीडिया में आई उन मंगलवार का माडिया में आई उन खबरों को गलत और अटकलबाजी करार देते हुए खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गूंधी को राज्य से राज्यसभा सीट की पेशकश की जा राज्यसमा साट का पशकरा का जा सकती है। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें आई हैं कि सोनिया गांधी खपर जाइ हो के सामया पाया आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकर्ती और उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा सीट दी जा सक्ती है। राज्यसभा साट दा जा सकतता हा उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने ऐसी खबरों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, 'ऐसी सभी सूचनाएं झूटी हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। आप (मीडिया) ऐसी अटकले लिख रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है।

कुलपति की गिरफ्तारी पर

अंतरिम रोक बढाई

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली ३० जनवरी ।

प्रयागराज विश्वविद्यालय रि-थत डीम्ड विश्वविद्यालय शुआट्स के कुलपति व अन्य अधिकारियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के जबरन वम पारवतन करान क आरोप से संबंधित मामले में पहले से दिए गए संरक्षण को सुप्रीम कोर्ट् ने मंगूलवार को बढ़ा दिया। कोर्ट ने मंगलवार को बढ़ा दिया। आरोप है कि इन लोगों ने एक महिला को इसाई धर्म अपनाने को मजबूर किया था। न्यायमूति अतिरुद्ध बोस और न्यायमूति संजय कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में एक हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की युनवाई तीन हफ्ते वाय होगी।

तीन हफ्ते बाद होगी। इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा मामले की प्राथमिकी को रद्द करने भागल का प्राथामका का रद्द करन की फरियाद को दुकराने के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर युनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। पिछले साल दिसंबर में पीठ ने कुलपति और अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी

www.readwhere.com

पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

की जांच जारी है और अब तक अदालत में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। कब्जा सूचना HSBC (बाक) त्योहस्ताक्षरी द हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएसबीसी) व

ण्याके आवोहरूव आविश्व दे हांगठमंग और शंपाई बॅंकिंग कॉर्जोरेशन लिदिटेड (एसएससीसी) आवीहरूव आविश्व के रूव में जिसका पंजीहरूत कार्यालय ह2/60, मडाल्या गांधी रहे, मुंगई 40001 है जोर प्रतिमुत्तिवरण के तवत दरफा एक कार्यालय 62 हां दिल्तो में ही लिंसा पंतरीता कु पुनर्नामण जेर पुराक्षा का प्रत्यांक अविनियम, 2002 और सुरक्षा विंत (प्रत्यांग) नियम, 2002 की नियम 3 के साथ परित पारा 14(2) के तदल प्रदर राष्ट्री कार्यों का प्रयों करते पुष्ट दिनांच 10/2223 को एक विंता प्रात की रहत प्रदेश निक्रेषों के प्रयों करते पुष्ट दिनांच 10/2223 को एक विंता प्रात के तदल प्रदेश निक्रेषों प्रका वार्वा करा प्रदेश कि प्रदेश हराय के तदल प्रदेश निक्रेषों प्रेस वार्वाक प्रायुट दिनीटर (आपतरकी) तिरका कार्यालय बे-कड वागवस प्रसे, प्रतन्तपूरी, रई दिन्दी – 11005 में है और थी रावेस मुमार सालब वाईस हरत प्रत जो र पैसे राज्य प्रसुप: (सार-7), को व्यतियों का प्रतांक कार्यालय कारवा वार्य हर स्वार जो र पैसे राज्य प्रसुप: (सार-7), को व्यतियों को प्रतेश मुनाम मं पहिल्दीय रात्ति 300622023 को रु 89.122027.7 – (रुपए आं करोड ही को री रावेस के कि कहा या जो र पैसे राज्य संसे मा जा उल्ल नी निरक्ष के सीदिस की पाता को है प्रयुप्तमीती के प्रतिवत्त वी कि 3068 हराउर किये कहा था। प्रतप्रतां, गांधदर्()/ 4ंधककर्ता डास साम युक्तने ने सियस रखी राज्य सुपा प्रतप्रत की तार्वी के वित्र की ने नाते कोस स्वार मानी साम ताला है कि पुष्ट प्रसांती के प्रयिद्ध ने की कार पर प्रस प्रमान की सास रावेश ताला है कि पुष्ट स्वार किया की या प्रयोग करसे हुए नीचे धॉनिर संचाना भावी सी तरा लाता है कि क्रिया कर से उधात्रास्त ने गांदर / संगरकर्ता की राज्य क्रेश से तन्त-की रात्री के देत्रिय ही को द्वां दा दा रात्र से के साथ करी से तन्तन की आपता ही के कहत के दाया की स्वारी हो क्राय रो राय्र से अंगि राज्य है से माज, जास साय को क करतेड इस्वान्से ताला बाईस हारा दो राय्र से आर राज्य है से मो जा उत्तर एक रातर्ट अं आवत के साथ ही **निया राय** (मेल्य नाडा हो) **निया राय** मुं द्वावस संरोग रं प्रसर संरित का दिव्रम रात्र र संसायती का आग हो सि स्वार की प्रसान की अंत-स्वार की राज्य है सि माज कारात के कारा का साया हिस्सा से प्ररार संर स्वार से के प्ररान करि साय-राद्र सं अं राज्य का हो। **निया रा**

ागरवा रखी गई अवस्त सथात का विवरण फॉट नंबर 122, पॉकेट-बी३, संबटर 17, द्वारका, नई दिल्ली 110075 वालें आवासीय संपत्ति का सारा हिस्सा और पार्सलय उत्तर में – सड़क, दक्षिण में – फॉट नंबर 128, पूर्व में – फॉट नंबर 121, पॉर्डम में – प्लॉट नंबर 123,

लाट गय	K L	28, पूष	*1		venic	4.64.8	121,	413	વન	•1	-	enc	गवर	123	
														ह	स्ता/–
देनांकः 2	23 उ	ानवरी,	202	4									प्राधिकृ	त अ	ाधिकारी
स्थानः न	नई f	देल्ली			द	हांगक	ांग अ	ौर	शंघाः	ş	बैंवि	तंग द	गर्पोरे श	ন 1	लेमिटेड



सूचना 02 फरवरी, 2024 को तो जसका मंग्रा ली बोर्ड बैठक में अंतरिम लाभांश शेयरधारकों को किया जाएगा जिन ता है तो उसका संदाय उन इक्वि 12 फरवरी, 2024 की स्थिति के कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या थति के अनुसार, जो इस प्रयोजनाथें निय स्टर या डिपॉजिटरी के अभिलेखों में लाग tithe कित अधिविधा, 2020 द्वारा 01 आर्थेल 2020 से प्रमृत परिवर्तनों, और तरपास्ता वया संगोति, के अनुपाल में बंगनी से उसके वेपरपारकों को सदता लाभांत पर निधा दर्ज पर कर को येककर रखना अधेरित हो प्रमुत कर्नों के विरुप, प्रत्येक लेगी के निरुपारकों द्वारा प्रस्तुत किर जाने वाले अधेरित दस्तावेंगों की सूची और संबंधित कर जबसंघों के किर, वीररपारकों के चुनारे वे स्वादार zww.ongineerindia.com का अवलोकन करने का अनुरोध है। में दिखाई देते हैं। करन का अनुराध है। प्राय केरारपारक से, जो सोत पर कर की सैंद-कटोती का साप लेना चाहता है, यह सुरीरिशत करने का अनुरोध है कि ज़रर नियत आवश्चक दरसावेज सोमवार, 12 फलवी 2024 को या उससे पहले करनी के रजिरदूरा और अंतरण अपिवली अवीध मैससे अवलिका आदान्मरीस सिनिप्रेंड, 2020, अनारखली का क्रेप्येल्स, इंडोवाना एससटेक्षन, नई दिल्ली के पास या ईमेल द्वारा rla@alankit.com पर पहुंच जाएं। एकस्टोरन, मई दिल्ली के पास वा दोनेन द्वारा सब खेबताश्रंस com पर पहुंच लाएं। यह पूसना केंगली के बेसवाइट www.nagineensindia.com पर पी, लिन पर कंपनी ये बेबसाइट www.bseindia.com पर पी, लिन पर कंपनी ये रोतर सुर्योद्ध है, उपलब्ध है। अधीक सप्टोद्धकाय वा सहावता के सिए, आप हमें इस पत्ने पर पत्र भेज सकते हैं: भी सीद मार्म मैंनेवर यूपिस: इंगीनियसं इंडिया लिभिटेड संपत्न अप्रेलान, स्वी हरेगा जिमिटेड मनेजर यूनिट: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मैसर्स जलंकित जसाइनमॅट्स लिमिटेड 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, अंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 ईमेल आईडी:com arv@eil.co. फोनः 011-2676212 फोनः 011-42541234 कते इंजीनियर्स इंडिया लिमिटे हस्ता./ क्शानः नर्ग निवनी

इंडियन बैंक 🔬	Indian Bank	एसएएम लार्ज शाखा दिल्ली प्रथम तल. 17. संसद मार्ग. नई दिल्ली फोन: 011-23342168, मो. 9800227769,7500411777 ईनिल: armbdelhi@indianbank.co.in
का प्रवर्तन व्यथिनियम् 2002 के कामैन आग लोगों को और विशेष रूप से ख्या इस्लापुर, दक्षिण परिषम दिल्ली – 110 और गारंटर – 1. जी संजय अगर पुत्र रूप. मोहिंदर सि 2. श्री अजय आगर पुत्र रूप. मोहिंदर सि एसगम्मी – दाता को यह नोटि- मीतिक कब्बा, (प्रतिमूत तेलदार) पूर्व लिया गया है. को 'जहाँ है. जेशा है औ लाख जरमास इकार पा सरी मांधारी	आसल सम्परिती के विक्री नियम 8(a) के परन्तुक के साथ अपल संपरिती के विकार हे दु रारकर्ता और गारंटरों मैसर्स जेसे 10075 इसके प्रोपसईटर और 10073 इस वीपीओ इस्सापुर, दक्षिण परि स, वीपीओ इस्सापुर, दक्षिण परि स, विया जाता है कि नीचे वर्णि सा दिया जाता है कि वोध वार्ण दाराधाय वे कि (आ इंडियन से रा जो कुप मी हैं'' के आगार पर 1073 कि आ 2012 कर कर	1.6() का परन्तुक देखें) हुईनेनाला कियन मोलिस बीठेत तिसीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुरुगांठन तथा प्रतिभूति हित बना तिम लेखेर, यो लंकय वारार युव स्वर्गीय भी मोहिंदर सिंछ, गीपीओ, वय आरप पुत्र स्वरगीय भी मोहिंदर सिंछ के माध्यम से, निवासी गीपीओ प्रथम दिल्ली – 110073 (प्रोपराईटर, कंबककर्ता और गारंटर) वम दिल्ली – 110073 (प्रेपराईटर, कंबककर्ता और गारंटर) वा उपलर्थन साथा दिल्ली (प्रोन्द्र) वे तरार के पास वयक / प्रमासित है, का दुवियम के को कबाया सीठि स. 15.64.9.482.00 (ए एक करेड उपय- इसियम के को कबाया सारि स. 15.64.9.482.00 (ए एक करेड) वा वा वा दे प्राप्य साथ की प्रित एक करा का क्या, इसियम साथ प्राप्य साथ वा दे प्रण्य मारा की मिलि सक मा कबाला दुवियम
क, एसएएम शाखा दिल्ली प्रतिमूत ले	निवार की वसूली हेतु दिनांक 20	
ई—नीलामी मोड के माध्यम से बिक्री हेर	तु संपत्तियों का विशिष्ट विवरण न संपत्ति प्लॉट नं. 04 के हिस्सा, क्षेत्रफल 200 व पश्चिम दिल्ली – 1100 मकान, पश्चिम में – 10	-02-2024 को बेच्चा जाएगा। गिथे दिया गया है: दक्षिणी बाग ½ हिस्सा, क्षेत्रकल 100 वर्ग गज, प्लॉट नं, 105 का आधा गं गज, खसरा नं 22/16 में दोनों प्लॉट, परमपुरा, नजफगढ़, दक्षिण अंत्रे में पियता (क्वे बेक्रफल 150 वर्ग नज), पुरुष में – जीत सिंह कोजी का
—नीलामी मोड के माव्यम से बिक्री हेर् ग्मारित का विवरण	तु संपत्तियों का विशिष्ट विवरण न संपत्ति प्लॉट नं. 04 के हिरसा, क्षेत्रफल 200 व परियम विल्ली – 1100 मकान, पश्चिम में – 10 106	-02-2024 को बेचा जाएगा। कि दिया गया है. दियागे गया है. दिस्पा, केवफल 100 वर्ग गज, प्लॉट नं, 105 का आधा में गज, खरात नं. 22/16 में दोनों प्लॉट, प्रस्मुचन, गजकाव, दोस्पा को निया (मुले केवल 150 को गज), पुराने – जेली दिल कोजी का कोट गली, जरार में – प्लॉट नं. 104 का होग माग, दक्षिण में – संगरि नं
(g संपत्तियों का विशिष्ट विवरण न संपत्ति प्लॉट नं. 04 के हिस्सा, क्षेत्रकल 200 व पश्चिम दिल्ली – 1100 मकान, पश्चिम में – 10 106 बैंक को ज्ञारा नहीं शाखा	-02-2024 को बेचा जाएगा। मित्रे रिवा गया है दिली माग ५६ सिरमा, वेशकल 100 वर्ग गज, प्लॉट नं. 105 का आधा मां गज, खरमा नं 22/16 में दोनों पली, प्रसमुदा, जाकास, दलिप के निया (जुले सक्ता 150 वर्ग गण,) पुल में – जेता सित्र का जीट गली, जतर में – प्लॉट नं. 104 का होग माग, दक्षिण में – संपत्ति नं. में वर्णित रिकोर्ड अनुसार
—गीलागी मोड के माभ्यम से बिक्री हेर् सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति पर भार सरक्षित मूल्य	दु संपत्तियों का विशिष्ट विवरण न संपत्ति प्लॉट न, 04 के हिस्सा, क्षेत्रकल 200 व पशियम दिल्ली – 1100 मकान, पश्चिम में – 10 106 वैंक को झात नहीं शाखा रु. 64,00,000.00 (रु.	-92-2024 को बेचा जाएगा। कि दिया गया के दिवली माग 54 दिला से संकल्प 100 वर्ष गांव, प्लॉट नं. 105 का आधा में गज, खसल नं. 22/16 में दोनों प्लॉट, धरमपुरा, मजकगढ़, दक्षिण 8.3 ने दिखा (कुल केमकन 150 कर्ग नज), पुरब में — जीत सिंह कोजी का कोट गयो, उपर में — ब्लॉट नं. 104 का रोप माग, दक्षिण में — संगति नं में वर्णित रिकोर्ड अनुसार वीरात लाख मात्र)
ई-नीरवामी मोड के माध्यम से बिक्री हेर् सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति पर भार प्रारक्षित मुल्प र्रूएमडी राशि	दु संपत्तियों का विशिष्ट विवरण न संपत्ति प्लॉट न, 04 के हिस्सा, क्षेत्रकल 200 व पशियम दिल्ली – 1100 मकान, पश्चिम में – 10 106 वैंक को झात नहीं शाखा रु. 64,00,000.00 (रु.	-02-2024 को बेसा जाएगो। कि रिया गया है देविणी गान 15 सिरवा, सेकफल 100 वर्ग गज, प्लॉट नं, 105 का आधा में गज, खराल में 227/16 में दोनी प्लॉट, प्रस्मायुत, प्राच्छाना, देविण के रिया (खुले बेसकत 150 में गज), प्राय में – जेती दिन कि को की टा गले, उत्तर में – प्लॉट नं, 104 का लेग भाग, दक्षिण में – संपत्ति नं, में दार्गित (कि कोई अनुसार पीसठ लाख माज) काल पालीस कारा माज)
ई-नीरवामी मोड के माध्यम से बिक्री हेर् सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति पर भार आरंतित मूल्प इंपस्की राशि गोली वृद्धि राशि	वु संपत्तियों का विशिष्ट विवरण 4 संपत्ति प्लॉट नं. 04 के हिस्सा, क्षेत्रफल 200 व पश्चिम क्षेत्रफल 200 व पश्चिम क्षेत्रफल 200 व मकान, पश्चिम में – 10 106 वेंक को ज्ञात नहीं शाखा रू. 64,00,000.00 (रू. ! रु. 6,40,000.00 (रु. ! रु. 1,00,000/- (रु. एक	-02-2024 को बेसा जाएगो। कि रिया गया है देविणी गान 15 सिरवा, सेकफल 100 वर्ग गज, प्लॉट नं, 105 का आधा में गज, खराल में 227/16 में दोनी प्लॉट, प्रस्मायुत, प्राच्छाना, देविण के रिया (खुले बेसकत 150 में गज), प्राय में – जेती दिन कि को की टा गले, उत्तर में – प्लॉट नं, 104 का लेग भाग, दक्षिण में – संपत्ति नं, में दार्गित (कि कोई अनुसार पीसठ लाख माज) काल पालीस कारा माज)
बिंग, एवएएम शाखा दिल्ली प्रतिभूत से ई—गीसामी मों क वे भाव्यम से विज्ञी हे। सम्पत्ति का दिवरण सम्पत्ति पर्युत्व दूरपाठी समि दूरपाठी समि दूर-गीसामी की तिथि एवं समय स्थानि आ	वु संपत्तियों का विशिष्ट विवरण 4 संपत्ति प्लॉट नं. 04 के हिस्सा, क्षेत्रफल 200 व पश्चिम क्षेत्रफल 200 व पश्चिम क्षेत्रफल 200 व मकान, पश्चिम में – 10 106 वेंक को ज्ञात नहीं शाखा रू. 64,00,000.00 (रू. ! रु. 6,40,000.00 (रु. ! रु. 1,00,000/- (रु. एक	-02-2024 को बेचा जाएगा। भिवे दिया गया है: दियागे गया है: दियागे गया है: दियागे गया है: दियागे गया है: देवियों पर सिंह प्राप्त में - प्लॉट ने ने 104 का होग माग, दक्षिण में - संपत्ति ने, में वर्णित रिकोर्ड अनुसार सौराठ ताला मात्र) : लाख चात्रीस हजार मात्र) : लाख चात्रीस हजार मात्र)
4ू-नीसामी मोव के माध्यम से विक्री हेर्ग सम्पत्ति का दिवरण आरक्षित मुल्व युल्की तींचे संस्तीति को तिवि एवं समाध सम्पत्ति आहती मां वो तिवि एवं समाध दू-नीस्टाकी मां वो तिवि एवं समाध देव्य0002 और के स्तिर कृष्णा कि स्तारन ने 1800105282 का किल्पा कर सिराज ने स्तिर के सिरा कृष्णा कि स्तारन ने 1800105282	ु पंपरिपत्ती का विक्रिय विकल्प पंपरि प्लॉट न, 0.4 के विरस, वेश्वर न, 0.4 के विरस, वेश्वर न, 0.4 के विरस, वेश्वर न, 0.4 के प्राहा के क्रांत नहीं शाख के के जात नहीं शाख के 64,00,000,00 (ए. ए. र. 1,00,000/- (U. t. 1	-02-2024 को बेचा जाएगा। के दिया गया है: देविणों गया 5 हिस्सा, वेजकल 100 वर्ग गज, प्लॉट नं. 105 का आधा में गज, खरास नं. 22/16 में दोनों प्लॉट, प्रसमुदा, नाजकार, दविण के दिया (स्तु के उप्तर में – प्लॉट नं. 104 का रोग मांग, दविण में – संपत्ति नं. ये दार्थित (स्रिकेंड अनुसार योरत लाख पाली हजार प्राज) लाख मात्र) 11.00 पचे से क्यॉ. 04.00 बजे तक को दिए स्वार्थ प्राजी ने का प्रदाना एसएस्ट्रीजी लिम्टिड की के स्वास्तुद्ध को विए क्या प्राण्डी किस्टिड की के स्वार्थ को स्वार्थ करोड में जीनामी लेखा प्रदाना एसएस्ट्रीजी लिम्टिड की के स्वाराह्य एक प्राण्डी प्राण्डी के प्रिस्टर्गना कि की क्या प्रदेश प्राण्डी को स्वार्थ करोड में जीनामी लेखा प्रदाना एसएस्ट्रीजी लिम्टिड की के स्वाराह्य को स्वार्थ करोड के जी। क्या उप्तार प्राण्डी स्वार्थ के स्वार्थ प्राण्डी का स्वार्थ करों के जी। इस्तार्थ तिर्व से संवर्गित स्वार्थ करण के लिए का स्वार्थ करों । देश अंतर इस्तार्थ ति से संवर्गित स्वार्थ करण के लिए

Place : Mumbai

Date : 29 January 2024

परमबीर सिंह के खिलाफ मामले को

देश

बंद करने की तैयारी

टाणे, ३० जनवरी, (भाषा)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज कथित जबरन वसूली के

मामले को बंद करने को लेकर अदालत में मामल का बंध करन का लंकर अदालत म रपट पेश की है। जांच एजंसी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाणे के समक्ष पेश इस रपट पर अगले माह विचार हो सकता है। सीवीआइ ने अपनी रपट में कहा है कि मामले में तथ्य और परिस्थितियां आरोपों को साबित नहीं करतीं या

| जनसता |

किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मकदम किसा भी आरापी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई भी सवूत का खुलासा नहीं करतीं। रपट में कहा गया कि वर्ष 2016-2017 के चैरान हुई घटना की शिकायत 2021 में कराई गई। ऐसे सबुत उपलब्ध नहीं थे, जो आरोपों को साबित कर सकें।

31 जनवरी, 2024

5

| 2021 की रात | चार अन्य को इस मामले में एक जनवरी
इंदौर के एक कैफे से गिरफ्तार किया गया
की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह |

 | क्षेक आंग्र बझीदा | शाख
 | ाः जे−10, | विकासपुरी, ब
ई-मेल : १ | क ऑफ बड़
vikasp@ba
 | |
 | दिल्ली–1100 | 18 | वल सम्प
 | |
|---|---
--
--
---|--|--|--
--
---	--
---	---
गौड़ के बेटे	एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर

 | Bank of Baroda |
 | | दूरभाष : ० | 11 28541040
 | तथा 011 |
 | | | बिक्री
 | सूचना |
| | में मामला दर्ज किया गया था। तुकोगंज
री जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मामले |

 | [ऑक्शन टाइगर पर सं
परिशिष्ट-सी, चल सम्पत्तिग |
 | | |
 | |
 | | |
 | 266 |
| | है और अब तक अदालत में आरोप पत्र | तथा पु

 | 1 हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं
नर्निर्माण के तहत चल∕अचल आस्तियों की विक्री | s(6) के प्राव
हेतु ई-नीलामी
 | व्धानों के साथ
बिक्री सूचना | ग पठित प्रतिभूति | । हित अधिनियग
 | ग, 2002 की | वित्तीय आस्तिर
 | | | 323
 | |
| с | কর্তনা মুখেলা
(ধর্মন তার্মান ক নিষ্ণ)
লিখন ৪(1) | जिसका

 | सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधकक
कब्जा बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था,
पर की जायेगी। कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों/प्रति | नीचे वर्णित बक
 | हायों की वसूली | । के लिए उसकी | विक्री ''जहाँ है
 | जैसे है'' तथा | ''जो है यही है
 | '' तथा ''जो कुइ | छ भी है वहीं है' |
 | |
| कांग और शंघाई | बँकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएसबीसी) का | क्र.
स./

 | | क्रणभारो,
कोई हो,
 | | कुल
देवताएं | ई-ना
की 1
 | शामी ः
तेथि — | आरक्षित मूल्य
ईएमडी
 | इएमड | ो जमा खाता
विवरण | कङ
(रद्यन
 | ज को स्थित
गत्मक∕भौतिक |
| | पंजीकृत कार्यालय 52 / 60, महात्मा गांधी रोड,
तहत इसका एक कार्यालय 25, बाराखमा रोड, | लॉट
स.

 | | ल सम्पत्ति का
विवरण
 | | | एवं र
 | तमय 茾 | वूनतम संविदा
युद्धि
 | | |
 | के निरीक्षण र |
| ोय संपत्तियों का प् | पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, | 1.

 | श्री विवेक कुमार, वाहन पंजीकरण सं. Di | L4CBA8328, च
 | र्शिस ने | F. 6,86,759. 00 /- | 17.02.
 | 2024 8 | 6,15,000/-
 | | 0015181869 |
 | थे एवं समय
भौतिक |
| (प्रवतन) ानयम्,
i का प्रयोग करते | 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)
हुए दिनांक 10.07.2023 को एक डिमांड नोटिस | н.
т

 | नं. १९२सी, ई-च्लांक, गली नं. ६, हनुमान MALFC81BLMM27
पार्क, निर्मल विहार, नजफगड़, दिल्ली- G4LAMM044244, नि |
 | | ⊦ अप्रयुक्त ब्याज +
नविंस्ड ब्याज + विं |
 | | र. 62,000/-
 | - सरफैसी ऑवश | गन प्रोसीड्स कलेव
खाता |
 | 12.02.2024 |
| पत्रों में प्रकाशित) | 28.07.2023) उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) |

 | 110043 लिमिटेड, मॉडल - वेन्यू 1
पोलर स्वाउट2 | .2 कण्पा एमटी एस,
 | | गवरुड ब्लाज + 1व
रभार + अन्य प्रभार |
 | (e) (195 | र. 10,000/-
 | BARI | BOVIKASP | समय :
 | 2.00 बजे क्षप. |
| | प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) जिसका कार्यालय
दिल्ली – 110058 में है और श्री राकेश कुमार | विक्री के 1

 | धारतृत नियम एवं शतों के लिए कृपया https://www.bankofbaro | da.in/e-auction.
 | .htm तथा https: | //bob.auctiontig | er.net/EPROC
 | में प्रावधानित लिंक | देखें। साथ ही, सम्भ
 | ।
वित संविदाकार अभि | वकारी प्राधिकारी से म |
 | .00 बजे अप.
227 / 9712609 |
| गैर श्रीमती मनीष | 1 कुमार (गारंटर),, को बुलाया गया और नोटिस
8,91,22,002.17 / – (रुपए आठ करोड ईकानबे |

 | vikasp@bankofbaroda.co.in. पर सम्पर्क कर सकते हैं। |
 | | |
 | |
 | | |
 | |
| ो और पैसे सन्नह | ह पैसे मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति और⁄या | तिथि :

 | 30.01.2024, स्थान : नई दिल्ली |
 | | |
 | |
 | | आध | कृत प्राधिकारी,
 | बक ओफ ब |
| ने 60 दिनों के ¥ | भीतर उस पर व्याज सहित चुकाने के लिए के | tis

 | जाब नैशनल बैंक 🚺 | ouniat
 | natio | nal be | ook
 | |
 | | | सूचना
 | |
| | रा राशि चुकाने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता,
रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि |

 | भरोते का प्रतीक! |
 | the name y | ou can BANK | upon!
 | |
 | | ल⁄चल सम्पति | 4.1
 | |
| त अधिकारी होने
8 के साथ पवि
प्रयोग करते हुए | ा के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन)
इत उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत
ए नीचे वर्णित संपत्ति पर 23 जनवरी 2024 को | सिक्योरिट
प्रत्येक खा
विशेषतः

 | श्रेंगाव नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाई
दी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रक
हो के समझ अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पर्ि
ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि ये | म की अदायगी हेतु ।
ठेत उक्त अधिनियम
। संबंधित परिसम्पति
 | एक डिमांड नोटिस
1 की धारा 13 की
त्त की खरीद फरो | र जारी किया था। ऋ
उप-धारा (4) के तर
ख्त न करें तथा इन | णी के डारा रकम व
इत प्रतिभूति हित (प्र
परिसम्पत्ति के किर
 | ी अदायगी न कर
वर्तन) नियम 200
ती भी क्रय विक्रव | ने के कारण निम्नति
12 के अन्तर्गत प्रद
के लिए यहाँ नीचे
 | तेखित ऋणकतां एवं
त्त शक्तियों के प्रयोग
खाते के समक्ष रकम | ां जन साधारण को न
ग में अधोलिखित स | तेटिस दी जाती है
म्पल्ति का सांकेति ग
 | ंकि अधोहस्ताक्ष
क कव्जा ले लिय |
| ⊺ है
र्ता, गारंटर ∕ बंध | ककर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह |

 | गि। कर्जदार/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को |
 | लब्ध समय क सर | ाथ म, आधानयम क | त्र यारा 13 का उप-
 | धारा (8) क प्रावय | ान का आर आकृष
 | ट किया जाता ह | (ए) मांग नोटि | a
 | |
| पत्ति का लेनदे | न न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन—देन
त्क रुपये 8.91.22.002.17 /— (30.06.2023 को | क.
सं.

 | (ए) शाखा का नाम/(बी) खाता व
(सी) ऋणी का नाम व पत |
 | | | बंधक स
 | म्पत्ति का | विवरण
 | | की तियि
(बी) सांकेतिक | माग न
 | ोटिस के
र बकाया रक |
| | रक रुपय 8,91,22,002.177— (30.06.2023 क)
र दो रुपये और सन्नह पैसे मान्न) उस पर ब्याज |

 | |
 | | यमिक सम्पत्तिः 1. | and allocate
 | a album 2 and | N
 | A | की तिथि |
 | |
| फ़ज़ाने के वि | लेए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता, | मैस

 | <u>बाः बेगम क्रिज मेरठ</u>
र्स बाशु साइकिल एंड कंपनी (प्रोपराइटर ढारा), श्री हिमांशु |
 | गशुदेव शर्मा, अ | ोर स्पेयर और प्राप | व और फर्म के वत
 | मान और भविष्य | के अन्य सभी म
 | गेजूदा परिसंपलि। | (4) 30.01.2 | 24 牙
 | 5,02,824.90
भावी ब्याज |
| ध्यान अधिनियम | म की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों | पता
दका

 | 1: 9, शेर विल्डिंग, सरधना रोड, कंकरखेड़ा, जिला- मेरत
न नं0 जी-1, जी-11, कण्णा प्लाजा पॉकेट-जी, पल्लव | s, उ0प्र0- 2500
पुरम फेस-1, मेर
 | | . बंधक एक आया
०.२ पर जिर्मित |
 | |
 | | | दिनांक
 | 5 01.11.202
नी एवं अन्य |
| ंजाता है ।
रियी रखी गई | अचल संपत्ति का विवरण | 250

 | 0002, श्री हिमांशु शर्मा पुत्र स्व0 श्री वाशुदेव शर्मा (प्रोपरा | इटर), पताः मकान
 | T TO 3/8, T | 0 3 पर निर्मित,
स्तफाबाद उर्फ भूर |
 | |
 | | |
 | ना एव जन्व
न पूर्ण होने त |
| | टर 17, द्वारका, नई दिल्ली 110075 वाली | 250

 | त प्लाजा, नटराज वाली गली, नटेशपुरम, कंकरखेड़ा, मेरट
2001, श्रीमती मीरा शर्मा पत्नी श्री वाशुदेव शर्मा (गारन् | टर), पताः मकान
 | (8, 3090- 3
이 3/8, 학 | a/ 25 फीट चौर | ड़ा रास्ता, पश्चिम
 | : 20 फीट 6 । | (ंच∕ तत्पश्चात्
 | अन्य का मकान, | | 100 M
 | |
| ारा हिस्सा अं | गैर पार्सलय उत्तर में – सड़क, दक्षिण में – | भार

 | त प्लाजा, नटराज वाली गली, नटेशपुरम, कंकरखेड़ा, मेरट
2001, कुमारी शालिनी शर्मा पुत्री स्व0 वाशुदेव शर्मा (गार | 5 केंट, जिला- मे
 | रठ, उ०प्र0- उ | लर: 50 फीट 6
बेण: 52 फीट 9 |
 | |
 | | |
 | |
| – प्लाट नब | ार 121, पश्चिम में — प्लॉट नंबर 123।
इस्ता/ — | भार

 | त प्लाजा, नटराज वाली गली, नटेशपुरम, कंकरखेड़ा, मेरट | 5 केंट, जिला- मे
 | रठ, उ०प्र0- 1 | बणः 52 फाट 9
3.02.2012, यही |
 | |
 | | |
 | |
| 24 | प्राधिकृत अधिकारी | 250
एलाव

 | 3001, सलोनी शर्मा पुत्री श्री बाशुरेव शर्मा (गारन्टर) , प
ना, नटराज वाली गली, नटेशपुरम, कंकरखेड़ा, मेरठ केंट, जि | लाः मकान नं0 :
तला- मेरठ, उ0प्र0
 | 3/8, भारत म | ब-रजिस्ट्रार ऑफि |
 | |
 | | |
 | |
| द हाग | गकांग और शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 2. शास्त

 | बाः दिल्ली रोड वडीत | 11. 10.
 | प्रा | यमिक सम्पत्तिः व | ांधक दुकान साथ
 | आवासीय बिलि | र्ग के सभी भाग
 | । व भूखंड, स्थित | r (ए) 27.09.2 | 023 80 15
 | 5,58,843.8 |
| ोनियर्स | | वडी

 | र्स जैना फुटवियर (प्रोपराइटर द्वारा), पता 1: भगवान महा
त, जिला- बागपत, उ0प्र0- 250611, पता 2: धर्मपुरा, | कैनाल रोड, वर्ड
 | गैत, जिला- क्र | सरा नं0 452/2
त्रफल 146.48 व |
 | |
 | | |
 | भावी व्याज
5 01.09.20 |
| नर का उपक्रम) | A Govt of India Undertaking) | वाग

 | पत, उ0प्र0- 250611, श्री पंकज कुमार जैन पुत्र किशन च | वंद जैन (प्रोपराइट
 | र), पता 1: (^व | गरन्टर + बंधकव | र्जा)। विक्रय विले
 | ख के अनुसार | सीमाएँ:- पूर्वः 3
 | 0 फीट तत्पश्चात् | ŧ | + कानून
 | नी एवं अन्य |
| त्ल कंपनी
वर्स इंडिया भवन | A Navratna Company
1,1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारस |

 | वान महावीर मार्ग, राम वाग कॉलोनी, बड़ौल, जिला-
: 2: धर्मपुरा, कैनाल रोड, बड़ौत, जिला- बागपत, उ0प्र0 |
 | formin far | ो जितेन्द्र का मका
ोट तत्पश्चात् आत्म |
 | |
 | मकान, उत्तरः 15 | | भूगतान
 | न पूर्ण होने त |
| s India Bhawan
secretary@ei | n, 1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110066
il.co.in, 국국대학 / Phone: 011- 26762855/2580 | जैन
जाग

 | पत्नी पंकेज कुमार जैन (गारन्टर + बंधककली) , पता 1:
। कॉलोनी, बड़ौत, जिला- बागपत, उठप्र0- 250611, पर | : भगवान महावीर
ज्ञान: शर्णपत्र है
 | ્માંગ, રામ | ાદ લાવરબાણું આવ | યા ગયા મધ્યમ, પાય
 | 17.13 996 0 | લરબાવું ગલા દ
 | | |
 | |
| ngineersindia
राचिवालयः | a.com,CIN: L74899DL1965GOI004352
COMPANY SECRETARIAT |

 | । कालाना, बड़ात, जिला- बागपत, उठप्र0- 250611, प
त, जिला- बागपत, उठप्र0- 250611, | n z. anya, a
 | কলাল এড, | |
 | |
 | | |
 | |
| | ारकों के लिए | दिनांक

 | 5- 30.01.2024 |
 | स्थान | ाः मेरठ |
 | |
 | | प्राधिकृत अ | घेकारी पंजाब
 | । नैशनल बैं |
| | सूचना |

 | |
 | | |
 | |
 | ABE | |
 | |
| िकंपनी से उस
अपेक्षित है। प्र | 1 2020 से प्रवृत्त परिवर्तनों, और तत्पश्चत यथा
नके शेयरधारकों को सदत्त लाभांश पर नियत दरों
वृत्त करों के विवरण, प्रत्येक श्रेणी के शेयरधारकों | E

 | XTRACT OF UNAUDIT | ED STA
 | | - |
 | |
 | | |
 | 1000 |
| | स्तावेजों की सूची और संबंधित कर उपबंधों के
www.engineersindia.com का अवलोकन |

 | FOR THE ALLAR |
 | | |
 | |
 | | |
 | ULTS |
| | |

 | FOR THE QUAR |
 | | |
 | |
 | ECEME | BER, 20 | 23
 | |
| | |

 | FOR THE QUAR |
 | ND NI | NE MO | NTHS
 | |
 | ECEME
(₹in | BER, 20
Lakhs exce | 123
pt earning
 | |
| | की गैर–कटौती का लाभ लेना चाहता है, यह
१ नियत आवश्यक दस्तावेज सोमवार, 12 फरवरी |

 | FOR THE QUAR | RTER A
 | ND NI | NE MO | NTHS I
 | | 0 31 DI
 | ECEME
(रांग
cc | BER, 20
Lakhs exce | pt earning
 |) per sha |
| रोध है कि ऊपर
हले कंपनी के | की गैर–कटौती का लाम लेना चाहता है, यह
१ नियत आवश्यक दस्तावेज सोमवार, 12 फरवरी
रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता अर्थात मैसर्स | Sr.

 | | Quarter
 | ND NI | STANDALON | NTHS I
 | Year Ended | Quarte
 | ECEME
(₹in
CC
r Ended | SER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont | pt earning
D
hs Ended
 |) per sha |
| रोध है कि ऊपर
हले कंपनी के
लिमिटेड, 20 | की गैर–कटौती का लाम लेना चाहता है, यह
तियत आवश्यक दस्तावेज सोमवार, 12 फरवरी
रंजिस्ट्रार और अंतरण अपिकर्ता अर्थात मैसर्स
25-208, अनारकती कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान | Sr.
No.

 | FOR THE QUAR
Particulars | Quarter
31.12.2023
 | ND NI
r Ended
31.12.2022 | STANDALON
Nine Mon
31.12.2023 | NTHS I
 | Year Ended | Quarte
31.12.2023
 | (₹in
(₹in
r Ended
31.12.2022 | SER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023 | pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
 | y per sha
Year End
31.03.20 |
| धि हैं कि ऊपर
त्ले कंपनी के
लिमिटेड, 20
पास या ईमेल
साइट www.er | की मैर-कटोती का लाम लेना चाहता है, यह
िरेयर आवश्यक दरसावेज सोमवार, 12 फरवरी
रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता अप्रतंत मैसर्स
55-208, अनारकली कॉप्प्लेक्स, इंदेवालान
I द्वारा rta@alankit.com पर पहुंच जाएं।
ngineersindia.com और स्टॉक एषसर्वेजों की |

 | | Quarter
 | r Ended
31.12.2022
(Unaudited) | STANDALON
Nine Mon
31.12.2023
(Unaudited) | NTHS I
E
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
 | Year Ended | Quarte
 | CCEME
(₹in)
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited) | SER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont | pt earning
D
hs Ended
 | y per sha
Year End
31.03.20 |
| रोध है कि ऊपर
हले कंपनी के
लिमिटेड, 20
5 पास या ईमेल
साइट www.er
ia.com और w | की गैर-कटोती का लाग लेना चाहता है, यह
नियत आवश्यक दस्तावेज सोमवार, 12 फरवरी
रजिस्ट्रार और अंतरण अपिकर्ता अर्थात मैसर्स
55-208, आनारकती कॉम्प्लेक्स, झंडेवातान
इन्नरा rta@alankit.com पर पहुंच जाएं। |

 | | Quarter
31.12.2023
 | ND NI
r Ended
31.12.2022 | STANDALON
Nine Mon
31.12.2023
(Unaudited) | NTHS I
 | Year Ended | Quarte
31.12.2023
 | (₹in
(₹in
r Ended
31.12.2022 | SER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023 | pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
 | y per shar
Year Ende |
| रोध है कि ऊपर
हले कंपनी के
लिमिटेड, 20
5 पास या ईमेल
साइट www.er
ia.com और w
ध है। | की मैर-कटोती का लाम लेना चाहता है, यह
िरेयर आवश्यक दरसावेज सोमवार, 12 फरवरी
रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता अप्रतंत मैसर्स
55-208, अनारकली कॉप्प्लेक्स, इंदेवालान
I द्वारा rta@alankit.com पर पहुंच जाएं।
ngineersindia.com और स्टॉक एषसर्वेजों की |

 | | Quarter
31.12.2023
 | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note | NE MO | NTHS I
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
 | Year Ended | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
 | CC
(₹ in)
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note | SER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited) | pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
 | Year Ende
31.03.202
(Audited |
| ोध है कि ऊपर
इले कंपनी के
लिमिटेड, 20
9 पास या ईमेल
साइट www.er
a.com और w
4 है। | की तैर-कटोती का लाप लेना चाहता है, यह
नियत आवश्यक रस्तावेर सांभवार, 12 फरवरी
परिन्दुर और अंतरत अभिकर्ता अर्थात सैस्ते
52-5208, अराख्लको जेस्प्रेलम, डेवेसतान
द्वारा rta@alankit.com पर पहुंच जाएं।
ngineersindia.com जर पर, जिन पर कंग्नी के
ए, आप हमें इस परो पर पत्र भेज सकरो हैं:
प, आप हमें इस परो पर पत्र भेज सकरो हैं: | No.

 | Particulars Total Income from operations (net) | Quarter
31.12.2023
(Unaudited)
 | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii) | NE MO | NTHS I
E
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited) | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
 | CCEME
(₹in
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii) | SER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited) | pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
 | Year Ende
31.03.202
(Audited |
| थि है कि ऊपर
इले कंपनी के
लिमिटेड, 20
पास या ईमेल
साइट www.er
ब.com और w
र है।
रहायता के लिग
लिमिटेड | की तैर-बस्टोती का लाप लेना चाहता है, यह
नियत आवश्यक रस्तावेर सांभवार, 12 फरवरी
परिन्दुर और अंतरत अभिकर्ता अर्थात सैस्ते
52-5208, अगरखलों जीरजेर्ज्यम, इंडेवतालन
द्वारा rta@alankit.com पर पहुंच जाएं।
ngineersindia.com जॉर स्टॉल एसपॉर्जा की
www.nseindia.com पर भी, लिन पर कंमनी के
ए. आप हमें इस पते पर पत्र भेज सकते हैं:
भी पराजे, पही
कंपनी सादिव
इंजीनियम ईंडीय जिमिटेड | No.

 | Particulars | Quarter
31.12.2023
(Unaudited)
 | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii) | NE MO
STANDALON
Nine Mon
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55 | NTHS I
E
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited) | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
 | CCEME
(₹in
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii) | SER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited) | pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
 | Year End
31.03.20:
(Audited
563364.0 |
| ाथ है कि ऊपर
ले कंपनी के
लिमिटेड, 20
पास या ईमेल
माइट www.er
a.com और w
हो।
महायता के लिग
किमिटेड
ला लिमिटेड | की नैत-कटोनी का लाप लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्वक दरसावेज सोमवार, 12 फावरी
वीजदुरा दां उत्तरा अधिमत्तां जिपलेस, इंडोवाला
द्वारा tad Bahakit.com पर पहुंच जाएं।
nghoensind.com जोर रटोल एक्सरोजी की
www.nseindia.com पर भी, जिन पर कंपनी के
ए, आप हमें इस परो पर पत्र भेज सकते हैं:
भी एस.के. पाठी
कज्मनी सरीड
इंजीनिवर्स इंडिया लिम्टिड | No.
1.
2.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) | Quarter
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
 | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78 | NE MO
STANDALON
Nine Mon
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55 | NTHS
E
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
 | CCEME
(₹ in
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78 | SER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55 | 23
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
 | Year End
31.03.20:
(Audited
563364.0 |
| ाथ है कि ऊपर
ले कंपनी के
लिमिटेड, 2C
पास या ईमेल
ताइट www.er
a.com और w
ही
रहायता के लिग
रितमिटेड
स लिमिटेड
स लिमिटेड | की नैर-कटोनी का लाप लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्वक दस्तावेन सोमवार, 12 फावरी
वीनदुरा दर्श अंतरा अधिमत्ता ख्रियों सिस्ती
5-268, अरारखनी जोध्यलेस, इंडीवाला
द्वारा तर्थ खेक्षकोर्ध.com पर पहुंच जाएं।
त्राज्या क्षे इस परो पर पत्र भेज सकते हैं:
भी एसके, पाछी
कज्मनी सार्थे
इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड
इंजीनियर इंडिया लिभिटेड
इंजीनियर इंडिया लिभिटेड | No.
1.
2.
3.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / | Quarter
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
 | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78 | NE MO STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 | NTHS
E
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
 | CCEME
(₹ in
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78 | SER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55 | 23
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
 | Year End
31.03.202
(Audited
563364.0
25599.1 |
| ाथ है कि ऊपर
तो कंपनी के
लिमिटेड, 20
पास या ईमेल
साइट www.er
a.com और w
ह है।
हिरायता के लिगि
दिनिमेटेड
प्लेक्स, | की वेर-कटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
नियत आवश्वक दसावेन सोमवार, 12 फारसे
वींगदरार को अंतरा जीमकती आर्थात मैसते
उठ्ठात, अरारखाले जोम्प्लेस, इंडेवालान
द्वारा तब खेक्षकोरं.com पर पहुंच जाएं।
तुरारा तब खेक्षकोरं.com पर पहुंच जाएं।
तुरारा तब खेक्षकोरं.com पर पहुंच जाएं।
तुरारा तब खेक्कारों के राजि
www.nseindia.com पर भी, तिन पर कंपनी के
ए, आप हमें इस परो पर पत्र भेज तकते हैं:
भी एस के, पाछी
कजमती सीइय
इंजीनियर इंडिया लिमिटेड
इंजीनियर इंडिया लिमिटेड | No.
1.
2.
3.

 | Particulars
Total Income from operations (net)
Net Profit (before tax, Exceptional and /
or Extraordinary items)
Net Profit (before tax, after Exceptional and / | CURACIAN CONTRACTOR CO | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
 | NE MO STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 | NTHS I
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
16742.10
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98 | (₹ in)
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78
9534.56
 | BER, 20
Lakhs excee
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67 | 23
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
 | Year End
31.03.202
(Audited
563364.0
25599.1 |
| ध है कि ऊपर
ले कंपनी के
लिमिटेड, 20
पास या ईमेल
ताइट www.er
a.com और w
हि राहायता के लि
लिमिटेड
स लिमिटेड
स लिमिटेड | की वेर-कटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
नियत आवश्वक दसावेन सोमवार, 12 फारसे
वींगदरार को अंतरा जीमकती आर्थात मैसते
उठ्ठात, अरारखाले जोम्प्लेस, इंडेवालान
द्वारा तब खेक्षकोरं.com पर पहुंच जाएं।
तुरारा तब खेक्षकोरं.com पर पहुंच जाएं।
तुरारा तब खेक्षकोरं.com पर पहुंच जाएं।
तुरारा तब खेक्कारों के राजि
www.nseindia.com पर भी, तिन पर कंपनी के
ए, आप हमें इस परो पर पत्र भेज तकते हैं:
भी एस के, पाछी
कजमती सीइय
इंजीनियर इंडिया लिमिटेड
इंजीनियर इंडिया लिमिटेड | No.
1.
2.
3.

 | Particulars
Total Income from operations (net)
Net Profit (before tax, Exceptional and /
or Extraordinary items)
Net Profit (before tax, after Exceptional and /
or Extraordinary items) | CURACIAN CONTRACTOR CO | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
 | NE MO STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 29949.44 29949.44 | NTHS I
E
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
16742.10
16742.10
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98 | (₹in i
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78
9534.56
9534.56
 | BER, 20
Lakhs excer
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67 | 23
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
 | Year End
31.03.202
(Audited
25599.1
25599.1 |
| ध है कि ऊपर
ले कंपनी के
लिमिटेड, 2C
पास या ईमेल
गाइट www.er
com और w
हैं।
हायता के लि
लिमिटेड
स लिमिटेड
स लिमिटेड | की गैर-वाटोती का लाग लेना चाहता है, यह
मियव आवश्वक दरसावेन सांभवार, 12 फरवरी
पीनस्ट्रा प्रां आंसरा अधिकर्ता अध्रिक्ती
प्रां प्रां आंसरा अधिकर्ता वोष्पलेस, इंवेशतान
द्वारा Ita @alanki.com पर पहुंच जाएं।
ngineersindia.com अरे स्टॉज एससर्वेजों की
www.nseindia.com पर ग्रे जिन पर क्ये स्टांजों की
www.nseindia.com पर ग्रे जिन पर क्ये स्टांजों की
www.nseindia.com प्रां , जिन पर क्ये स्वानी के
प्रां आप हमें हस परे पर पत्र भेज सकते हुँ.
भी एस के. पत्नी
वोप्पति का प्रां ही स्टांज प्रां के
भी स्टां कर मार्थने
के स्टांज जान प्रे क्ये कि स्टांज
प्रां ही दिल्ली 1000
द्वारा जाई वीटकाक्रम, seetary@ell.co.in
योन: 011-28762121 | No.
1.
2.
3.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of | CURACIAN CONTRACTOR CO | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
 | NE MO STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 1 488379.55 29949.44 29949.44 | NTHS I
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
16742.10
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98 | (₹ in)
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78
9534.56
 | BER, 20
Lakhs excee
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67 | 23
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
 | Year End
31.03.202
(Audited
25599.1
25599.1 |
| ध है कि ऊपर
ले कंपनी के
लिमिटेड, 2C
पास या ईमेल
गाइट www.er
com और w
हैं।
हायता के लि
लिमिटेड
स लिमिटेड
स लिमिटेड | की वैर-कटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्वक दस्तावेन सोमवार, 12 फावरी
वीनदुरा दर्श अंतरा अधिकतो क्रांधीत सिस्ते
विरुद्ध आरं अंतरा जीभलेखर, इंडियाला
द्वरा तब खेक्षकोरं.com पर पहुंच जाएं।
जाुलाकाडांको.com पर भी, लिग पर कंपनी के
ए, आप हमें इस परो पर पत्र भेज सकते हैं:
भी एस के, पाछी
कप्रती होटली ना प्रेलिस इंडिया किलिटेड
इस्ता./ -
कुले इंजीनियस इंडिया किलिटेड
हस्ता./ - | No.
1.
2.
3.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income | Quarter
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9588.71
9588.71
7092.57
 | ND NI
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
6941.31 | NE MO STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 4488379.55 29949.44 21854.28 | NTHS I
the Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
16742.10
16742.10
12430.50
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
 | CCEME (₹ in 1 CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 7143.35 | BER, 20
Lakhs exceed
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67
21940.51 | 23
pt earning
5
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
 | Year End
31.03.202
(Auditec
25599.1
25599.1
18987.2 |
| ध है कि ऊपर
ले कंपनी के त
लिमिटेड, 20
पास दा ईमेल
गाइट www.er
हा
रा सा ही
श्रिमिटेड
स लिमिटेड
स लिमिटेड
स्वेबनसं.com | की नैर-कटोनी का लाप लेना चाहता है, यह
नियत आवश्यक रसावेंग सोमवार, 12 फरवरी
वीनदुरा तरं अंतरा अधिमतां जिरती सेंस्स
वीनदुरा तरं अंतरा अधिमतां जोधलेस, इंडेवातान
द्वारा तर्थ खेशकांशे.com पर पहुंच जाएं।
तुरा तर्थ खेशकांशे.com पर पहुंच जाएं।
तुरा तर्थ खेशकांशे राज्य भेज सकते हैं:
भी एस के: पाडी
कज्मनी तर्थव
इंजीनियर्स इंडिया विमिदेड
इंजीनियर्स इंडिया विमिदेड
इंजीनियर्स इंडिया विमिदेड
हरता./-
पूस के: पाडी
क्रांते उंजीनियर्स इंडिया विमिदेड
हरता./-
पूस के: पाडी | No.
1.
2.
3.
4.
5.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) | Cuarter
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9588.71
9588.71
 | ND NI
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vil)
148325.76
9332.52
9332.52 | NE MO STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 4488379.55 29949.44 21854.28 | NTHS I
E
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
16742.10
16742.10
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
 | (₹in i
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78
9534.56
9534.56 | BER, 20
Lakhs excer
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67 | 23
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
 | Year End
31.03.202
(Auditec
25599.1
25599.1
18987.2 |
| ध है कि ऊपर
ले कंपनी के ल
तिमिटेड, 22
पास या इंमेल
ग्राइट www.er
.com और w
हैं।
हायदा के लिपिटेड
प्रवेषस,
श्रे बोबाअंस.com
प्रथम
प्रथम
पर्यम
रा 011-232 | की नैर-कटोती का लाप लेग चाहता है, यह
नियत आवश्यक रसावेग सोमवार, 12 फरवरी
वीवन्द्रार तो आंसल अभिकतो क्योत सेस्स
वीवन्द्रार तो आंसल अभिकतो क्योत सेस
5-208, आराख्यों कीप्लेक्स, इंडेवालान
द्वारा तम खेवाकांसे त्यार पूर्व गए।
तुवरा सब खेवाकांसे त्यार पूर्व भेज सकते हैं:
भी एस के पार्थी
कप्ला हमें इस परे पर पत्र भेज सकते हैं:
भी एस के पार्थी
कप्ला हमें होडवा लिभिटेड
इंजीनियस इंडिया लिभिटेड
इंजीनियम इंडिया लिभिटेड
इंजीनियम इंडिया लिभिटेड
इंजीनियम इंडिया लिभिटेड
इंजीनियम इंडिया लिभिटेड
इंजीनियम इंडिया लिभिटेड
इंजीन वार्टी तालका कामा रदेत
नई रिज्यो 10068 | No.
1.
2.
3.
4.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company (darfe Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of | Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92
 | ND NI
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 29949.44 21854.28 25100.87 | NTHS I
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
16742.10
16742.10
12430.50
14099.50
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
 | CCEME
(₹ in
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78
9534.56
9534.56
9534.56
9534.56 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
20035.67
21940.51
25166.03 | 223
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
 | Year End
31.03.203
(Auditec
25599.1
25599.1
18987.2
20215.3 |
| ध है कि ऊपर
ले कंपनी के
तिमिटेड, 22
पास या इंमेल
गाइट www.er
 | की नैर-कटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
नियत आवश्वक दलावेन गोम्यार, 12 फारसे
वींगस्ट्रा से अंतरा अधिकतो आर्थात मैस्स
वींगस्ट्रा से अंतरा अधिकतो आर्थात मैस्स
पुरुषा सर्व खेबाकांसे.com पर पहुंच जाएं।
तुरुषा हम के पर पत्र भन्न सकते हैं:
वीं एस के, पाढ़ी
कंगीनियसं इडिया निभिदेड
हस्त था, 1, गोन्जनी कामा प्रदेस,
मंदी ल्यां, 1, गोन्जनी कामा प्रदेस,
मंदी लामा प्रत्स, 1, गोन्जनी कामा प्रत्न,
मंदी लामा प्रत्न कामा प्रत्न कामा में प्रत्न कामा प्रत्न कामा प्रत्न कामा प्रत्न कामा के प्रत्न कामा प्रत्न कामा प्रत्न कामा के प्रत्न कामा के प्रत्न कामा के प्रत्न कामा कामा प्रत्न कामा कामा कामा कामा कामा कामा कामा काम | No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company (darter Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of %5/- per share) | Quarter
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9588.71
9588.71
7092.57
 | ND NI
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
6941.31 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 29949.44 21854.28 25100.87 | NTHS I
the Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
16742.10
16742.10
12430.50
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84 | CCEME (₹ in 1 CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 7143.35
 | BER, 20
Lakhs exceed
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67
21940.51 | 23
pt earning
5
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
 | Year End 31.03.20 (Audite: 563364.0 25599. 25599. 18987.3 20215.3 |
| थ है कि उमर
ले कंपनी के
लिमिटेड, 22
पास या ईमेल
गाइट www.er
हो।
हायता के लिगिटेड
स लिगिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड
स्रोवनिटेड | की नैर-कटोनी का लाग लेग चालत है, यह
नियळ आवशक दलावेन नोम्यार, 12 फरवें
चौरनटूर और अंतरा अमिलतो आर्थात मैस्त
चौरनटूर और अंतरा अमिलतो आर्थात मैस्त
चौरन तब खेबतांसे.com पर पहुंच जारें।
तुरंग तब खेबतांसे.com पर पहुंच
बीरा के प्रार्थ हा पर पत्र भज सकते हैं:
बीरा के प्रार्थ हा स्वरित्र
हेन्द्री प्रार्थ होंदिया तिनिदेह
हेवा प्राय्त हा त्यां होटला निष्ठिह
हाता, / द
प्रत्य कर्ज साध्य
दिवलां गाउल
देखां प्रत्य, सरख वा मान वही दल्ती
तत्य, गर स्वर वा मान वही दल्ती
तत्व, गर स्वर वा मान वही दल्ती
तत्व, गर स्वर वा मान वही दल्ती
वर्दा स्वर्ध का खिला कितीयहा
स्वरित्र में साध्य | No.
1.
2.
3.
4.
5.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/ per share) Reserves excluding Revaluation Reserves | Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92
 | ND NI
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 29949.44 21854.28 25100.87 | NTHS I
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
16742.10
16742.10
12430.50
14099.50
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
 | CCEME
(₹ in
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78
9534.56
9534.56
9534.56
9534.56 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
20035.67
21940.51
25166.03 | 223
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
 | Year End
31.03.20
(Audite
563364.1.03
25599.
25599.
18987.3
20215.
4784.1 |
| थ है कि उजय
ले कंपनी के
तिमिटेड, 20
पास या ईमेल
माइट www.er
.com और w
है।
हायरता के लि
लिमिटेड
स लिमिटेड
स लिमिटेड
स लिमिटेड
स का परचुक
क परचुक
नीतामी विक्रय
हैंगेला का
का परचुक | की नैर-वन्टोनी का लाग लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्वक दस्तावेन सोमवार, 12 फावरी
वीनदुरा दर्श अंतरा अधिकतो क्रांथता सेस्स
वीनदुरा तर्श अंतरा जीभवेल्स, इंग्रेंसताना
द्वारा तर्श खेक्षकार्थता का से रटांक एक्साको की
www.nesindia.com पर भी, लिन पर कंपनी के
ए, आप हमें इस परो पर पत्र भेज सकते हैं:
भी एस.के, पाड़ी
कज्पनी सोईद
इंजीनियर्स इंडिया विभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया विभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया विभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया विभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया विभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया विभिटेड
इंजीनियर इंडिया विभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया विभिटेड
इंजीनियर इंडिया विभिटेड
इंजीनियर इंडिया विभिटेड
इंडिया वार्डिया विभिटेड
इंडिया वार्डिया विभिटेड
इंडिया वार्डिया विभिटेड
इंडिया वार्डिया विभिटेड
इंडिया वार्डिया विभिन्न
कप्रत्म तार्ड्य
प्रत्यूएष्ट वार्ज यात्रा दिव्ही
तदा रा, गलव बाग्री नहीं दिव्ही
तदा रा, गलव बाग्री नहीं दिव्ही
देखे]
म आर्डिया | No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of %5/- per share) Reserves axulding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date | Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92
 | ND NI
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 29949.44 21854.28 25100.87 | NTHS I
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
16742.10
16742.10
12430.50
14099.50
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
 | CCEME
(₹ in
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78
9534.56
9534.56
9534.56
9534.56 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
20035.67
21940.51
25166.03 | 223
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
 | Year End
31.03.20
(Audited
563364.04
25599.1
25599.1
20215.3
4784.8 |
| ध है कि उजर था
ने कंपनी के
तंपनिटेड, 22
पास या ईमेल
गड्ट www.er
है।
हायता के लिपिटेड
ने लिपिटेड
ने लिपिटेड
ने श्रीनटेड
ने श्रीनटेड
ने श्रीन रेड
के पर-पुरु
मीलामी विक्रय पुरा
मेलि का वा पर-पुरु
मीलामी विक्रय पुरा
मेलि का वा पर-पुरु | की नैर-वन्टोनी का लाग लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्वक दस्तावेन सोमवार, 12 फावरी
वीनदुरा दर्श अंतरा अधिकतो क्रांथता सेस्स
वीनदुरा तर्श अंतरा जीधकते क्रांथता से
(हारा तर्श खेशकारोत का को रदनील एसपांत्रों की
www.nesindia.com पर भी, लिन पर कंपनी के
ए. आप हमें द्वरा परे पत्र भेज सकते हैं:
और एस.के. पाडी
कज्यनी सोहेस
इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड
इंजीनियर इंडिया लिभिटेड
इंडिया क्रांडिया लिभिटेड
इंडिया लिभिटेड
इंडिया क्रांडिया लिभिटेड
इंडिया का क्रांडिया कि क्रिक्ट 700411777
mbbalh@jidgindianbank.co.in
देखे]
व माहिस | No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/ per share) Reserves excluding Revaluation Reserves | Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92
 | ND NI
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 29949.44 21854.28 25100.87 | NTHS I
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
16742.10
16742.10
12430.50
14099.50
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
 | CCEME
(₹ in
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78
9534.56
9534.56
9534.56
9534.56 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
20035.67
21940.51
25166.03 | 223
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
 | Year End
31.03.20
(Audite
563364.1.03
25599.
25599.
18987.3
20215.
4784.1 |
| 1 है कि उजर 1
ने कंपनी के लेपने के लेपने के तंपनी के तिमेटेड, 20
पास या ईमेल
ाइट www.er
है।
डायरा के लिप्
डींगे
डा लिपिटेड
होनलामी विक्रय
इंगेला के वाक्य सुच
से जा परप्तुक
तीनामी वाक्य सुच | की सैर-कटोनी का लाग लेगा चाहता है, यह
नियाज आवसक दलावेत नोमामा, 12 परवर्षी
दगिरदुर और अंतरा अमिकती ज्यांत मेरस
दगिरा हवे खेळाते.
दगिरा हवे खेळाते.
दगिरा हवे खेळाते.
दगिरा हवे खेळाते.
दगिरा हवे खेळाते.
दगिरा हवे खेळाते.
दगिरा हवे खाते.
ए, आह हमें हम सने पर पत्र भेज सकते हैं.
बीचान वेखें
देवीने पार्थ हैंदा सिरिदेड
हेन्द्रीय प्रदेश सिरिदेड
हिंसे आदिति ompany secretary खा.co.in
लेने: 011-26762121
क्रेसे दिखा सिरिदेड
हार भाष, ही दखा तिरिदेड
हार भाष, ही दखा तिरिदेड
प्रसारम कार्ज साख दिव्या
त | No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/ per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Eamings per share (not annualised for the | Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92
 | ND NI
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 1 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 55610.87 5640.94 | NTHS I
ths Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
410327.90
16742.10
16742.10
12430.50
14099.50
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82 | Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
 | CCEME
(₹ in
CC
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.78
9534.56
9534.56
9534.56
9534.56 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
20035.67
21940.51
25166.03 | 223
pt earning
D
hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
 | Year End
31.03.20
(Auditee
563364.0
25599.:
25599.:
18987.1
20215.3
4784.1
95665.1 |
| र है कि उपर
हे ने कंपनी के तैनिदेड, 22 Ghicks, 25 Ghicks, 26 Ghicks, 26 Ghicks, 26 Ghicks, 26 Ghicks, 26 Ghicks, 26 Ghicks, 27 Ghic | की नैर-कटोती का लाप लेग चाहता है, यह
निराद आवश्यक रसावे सोमवार, 12 फरवरी
वीनदुरा दर्श उंतरा जमिदन वोपलेस, इंडेवालन
द्वारा तर खेखाता वोपलेस, इंडेवालन
द्वारा तर खेखाता कोपलेस, इंडेवालन
प्रात्रा तर खेखाता कोपलेस,
क्रात्रा हम इस परे पर पत्र पेज सकते हैं:
भी एस के पाछी
कप्रात्रा हम इस परे पर पत्र पेज सकते हैं:
भी एस के पाछी
कप्रात्रा हम इस परे पर पत्र पेज सकते हैं:
भी एस के पाछी
कप्रात्रा हम सार्थ
इंजीनियर इंडिया लिपिटेड
इंजीनियर इंडिया लिपिटेड
इंजीनियर इंडिया लिपिटेड
इंग्री प्रात्र 1, मेक्सकी काम प्रदेश,
स्रात्र के प्रात्रा हम सार्थ
स्वर्थ के प्रात्रा हम सार्थ
स्वर्थ के प्रात्रा हम सार्थ
स्वर्थ के प्रात्रा हम सार्थ
तत, ग, सहब मार्ग नई दिल्ली
दत, ग, सहब मार्ग नई दिल्ली
स्वर्थ के प्रात्रा हम सार्थ
तत्र मार्थ के प्रात्रा के प्रात्रा के प्रात्रा
हस्ते का सारिव्या कामका दिल्ली
स्वर्थ का सार्थ
स्वर्ध का सार्थ के प्रात्रा के सार्थ
स्वर्ध सार्थ
सार्थ के सार्थ | No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of %5- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date. Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) | CTER A
Quarter
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9588.71
9588.71
9588.71
7092.57
7495.92
5640.94 | ND NII
state of the state of t
 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 4488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 525100.87 55640.94 19.56 | NTHS I
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
16742.10
16742.10
12430.50
14099.50
2392.41
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82
95339.93 | 311 DI
Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
5640.94 | CEEME (tin) (tin) Ctc r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (fefer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 2392.41
 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
21940.51
25166.03
5640.94 | 23
pt earning
50
hs Ended
31122022
(Audited)
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41 | Year End
31,03,20
(Audite
563364.1
25599.
25599.
18987.3
20215.
4784.1
95665.1
17.1
 |
| य है कि उपये
केजनी के केजनी के केजनी के
लिनिटेड, 20
20 पाय वा हैकि
हारता के लिनिटेड
हारता के लिनिटेड
हारता के लिनिटेड
के के का परस्तुक
का परस्तुक
में तीनिटेड
के का परस्तुक
में तीनिटेड
के का परस्तुक
में तीनिटेड
के का परस्तुक
का प्रस्तुक
का का प्रस्तुक
का का क | की नैर-वन्टोनी का लाग लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्वक दस्तावेन सोमवार, 12 फावरी
वीनदुरा दर्श अंतरा अधिकतो क्रांथता सेस्स
वीनदुरा तर्श अंतरा जीधकते क्रांथता से
(हारा तर्श खेशकतो:com पर चुंदु जारां)
त्राजा तर्श खेशकतों का जी रदनिंग एसरांजी की
www.nesindia.com पर भी, लिन पर कंपनी के
प, आप होँ हुस परो पर पत्र भेज सकते हैं:
और एस.के, पाड़ी
कज्यनी सोहेय
इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड
हस्तार-
स्ताक, पाड़ी
कर्म्स, का इंडिया क्रिक्टि
कर्म्स, का इंडिया क्रिक्टि
कर्म्स, का इंडिया क्रिक्टि
कर्म्स, का इंडिया क्रिक्टि | No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary Items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (n ₹) - Diuted (in ₹) | CTER A
Quarter
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9588.71
9588.71
9588.71
7092.57
7495.92
5640.94
6.35
 | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
2392.41
5761.86
2392.41
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6. | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 4488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 525100.87 55640.94 19.56 | NTHS I
ths Ended
31.12.2022
(Inaudice)
(Inaudice)
(Refer Note
vii)
16742.10
16742.10
16742.10
14099.50
2392.41

 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82
95339.93
17.01 | 311 DI
Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
5640.94 | CEEME (१ in 1 CC Inded 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43
 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67
21940.51
25166.03
5640.94
19.64 | 23
pt earning
pD hs Ended
31.12.2022
(Audited)
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
 | Year End
31.03.20
(Auditee
25599.:
25599.:
18987.1
20215.:
4784.1
95665.1
17.1 |
| ए है कि उसने
ते केपनी के ते कपनी के
तिमिटेड, 20
तिमिटेड, 20
राज हो हो
हा हा पा का हो हो
हा हा पा का हो के
हा हा के कि कि कि क्य
हा स्वार
के की का का स्वार
के की कि कि क्य
हा स्वार
कि कि कि क्य
हा स्वार
कि कि क्य
हा स्वार
के का कि का का
स्वार
के का कि का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का
स्वार
का स्वार
का स्वार
का स्वार
का स्वार
का स्वार
का स्वार
का स्वार
का स्वार
का स्वार
का स्वार
का
स्वार
का
का
का
का
का
का
का
का
का
का
का
का
का | की सैर-जटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्वक दसावेन सोमयार, 12 फारसे
संग्रे स्वरेश अंतरा अमिकतो आर्थात मेस्स
संग्रे स्वरेश अंतरा अमिकतो आर्थात मेस्स
(ज्रा तब खेकाओर.com पर पूर्व जारा)
त्राजा तब खेकाओर.com पर पूर्व जारा
त्राजा तब खेकाओर.com पर पूर्व जारा
त्राजा तब खेकाओर.com पर पूर्व
से प्रि स्वरे स्वरे पर पत्र भेज सकते हैं:
से प्र स्वरे स्वर्थ
कंपनी संग्रेंद्र सा प्र प्र पत्र भेज सकते हैं:
से प्र स्वरे स्वर्थ
कंपनी संग्रेंद्र स्वरे पर पत्र भेज सकते हैं:
से प्र स्वरे स्वर्थ
कंपनी संग्रेंद्र स्वरे स्वरे पर पत्र भेज सकते हैं:
से प्र स्वरे स्वर्थ
संग्रेंस संग्रेंद्र सा प्र ने स्वरेश
से संग्रेंद्र स्वरेग ने अंतिर सिंदेड
हरसा/-
हरस डे. स्वर्थ
कापने संग्रेंद्र सिंदे में स्वरित्त सिंदे
स्वरित्त की स्वर्थ
स्वरित्त की स्वरेग की स्वर्ग के स्वर्ग से सिंदे
से सीनिय
से सामिद्र सिंद से स्वर के मायन से, निवासी सिंदे
से सोनिय किस की प्र प्रतंतन तमा प्रतिमूधि दिस
से सीनिय किस की प्र क्वार्थना से स्वरेग
(सेपसर्व्त स्व क्वार्य स्वरेग स्व के मायन से, न्वारी सिंदेक)
(सेपसर्व्त स्व क्वार्य स्व क्वार्य प्र स्व क्वार, प्र सिंदे, क्वार्य | No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Notors

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary Items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (n ₹) - Dibited (in ₹) | Quarter 31,12,2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.33 xabel Limited (* 4)
 | ND NII
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 5560.94 5640.94 19.56 19.56 19.51 | NTHS I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82
95339.93
4784.82
95339.93
17.01
16.98
w with and com | 311 DI
Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
5640.94
6.35
6.34
 | CEEME (tin) (tin) Co r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.42 6.42 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
201940.51
25166.03
5640.94
19.64
19.64
19.59 | 23
pt earning
iD
hs Ended
31122022
(Audited)
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
 | y per sha
31.03.20
(Audited
563364.0
25599.1
25599.1
20215.1
20215.1
20215.1
20215.1
20215.1
10987.2
20215.1
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17 |
| ए मे ही जरफ के के जिसे के के जिसे के | की सैर-जटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
नियत आवश्चक दसावेज सोमवार, 12 फारवे
वींगदरा दा दे जेतरा जीयनती आदांग सैरस
वींगदरा दा दे जेतरा जीयनती जोगदेश, इंडेवाला
द्वारा तब खेकाओर.com पर पूर्व जारे।
तुरा तब खेकाओर.com पर पूर्व जेतरा तुर्व
देवी का की राज्य के प्राय के प्राय के प्राय
कंपनी संख्या
कंपनी संख्या
देवी का त्रा के प्राय के प्राय
प्रता का प्राय
के प्राय के प्राय
के प्राय का प्राय
करने के प्राय
हर ना. रस्त का प्राय
करने संख्या
त्या के प्राय
हर ना. रस्त का प्राय
करने संख्या
त्या के प्राय
करने के प्राय
के के प्राय
के | No. I 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 1. 9. 7. 9. 7.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and /
or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and /
or Extraordinary items) Net Profit fate: (Share of Owners of
the Company) (after Exceptional and / or
Extraordinary items) Total Comprehensive Income
(Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of
₹5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves
as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the
Quarters and nine months) - Basic (in ₹) - Diluted (in ₹) | CTERA
Quarter
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9588.71
9588.71
9588.71
9588.71
7092.57
7495.92
5640.94
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35 | ND NII
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer
Note
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 5560.94 5640.94 19.56 19.56 19.51 | NTHS I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82
95339.93
4784.82
95339.93
17.01
16.98
w with and com | 311 DI
Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
5640.94
6.35
6.34 | CEEME (tin) (tin) Co r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.42 6.42
 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
201940.51
25166.03
5640.94
19.64
19.64
19.59 | 23
pt earning
iD
hs Ended
31122022
(Audited)
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
 | y per sha
31.03.20
(Audited
563364.0
25599.1
25599.1
20215.1
20215.1
20215.1
20215.1
20215.1
10987.2
20215.1
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17 |
| ए हो के उसके
ते केपनी के ते केपनी के
तिमिटेड, 20
ते केपनी के तिमिटेड, 20
ते केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी
ते केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी
होंगर ता के
तिमिटेड
होंगर ता के तिमिटेड
होंगर ता के किपनी केपनी केपनी केपनी केपनी
होंगर ता केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी
होंगर ता केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी
होंगर ता केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी
होंगर ता केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी केपनी के
होंगर ता केपनी केपनी
होंगर ता केपनी के
होंगर ता केपनी के
होंगर ता केपनी के
होंगर ता केपनी केपन
केपनी केपनी केपन
केपनी केपनी केपन
केपनी केपनी केपन | की मैर-नटोनी का लाग लेना चाहला है, यह
1 नियत आवश्यक रसावेज सोमवार, 12 फावरी
वीनदरा दां उतंस उतंस्य अधिकतां क्यांत सेस्स
वीनदरा दां उतंस उतंस्य अधिकतां क्यांत सेस्स
5-208, असारकों जीभरेल्टा ह खास्तांतों की
www.nesindia.com पर भी, लिन पर कंपनी के
ए. आप हमें इस पर्य पर पत्र भेज सकते हैं:
मि एस.के. पाठी
कप्पनी साविध
इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड
इंग्ली प्रदान गाउठा कि हा का
स्थार प्रतार का का स्थान
क्यां के सावध
क्यां के सावध
के | No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and /
or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and /
or Extraordinary items) Net Profit fatter (Schere of Owners of
the Company) (after Exceptional and / or
Extraordinary items) Total Comprehensive Income
(Stare of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of
₹5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves
as at Balance Sheet date Earlings per share (not annualised for the
Quarters and nine months) - Basic (n ₹) - Diblied (in ₹) :
ne above unaudited consolidated financial results of R R1
exportance and the companies Act, 2013 (*The ac
equirements) | Ouarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.35 6.35 6.35 6.36 * | ND NII
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vil)
148325.7E
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 19.56 19.51 have been prepa abeve been prepa 3byAudit.Commit | NTHS I
the Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
16742.10
16742.10
16742.10
12430.50
14099.50
2392.41
11.19
11.19
11.17
red in accordance
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82
95339.93
17.01
16.98
e. with and com
kegulation 33 c
pheldon 29 Jan | O 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 ply in all materian uary 2024.Thel | CEEME (₹ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.42 Haspects with this Exchange Boas Boased of Director
 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.122023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67
21940.51
25166.03
5640.94
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
1 | 23
pt earning
pD
hs Ended
31122022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
ng Sandardis (J)
ng Sa | Year End
31.03.20
(Audited
563364.0
25599.1
25599.1
25599.1
20215.1
4784.1
95665.1
95665.1
17.1
(17.7
17.1
17.7
17.1
17.1
17.1
1
 |
| ाथ है कि उजर
तर केपनी के
लिमिटेड, 20
पास वा इंमेल
साइट अफ्श-हा
साइट अफ्श-हा
साइट अफ्श-हा
साइट आफ्श-
साइट आफ्श-
साइट साइट
साइट साइट साइट
साइट साइट
साइट साइट
साइट साइट
साइट साइट साइट
साइट साइट साइट
साइट साइट साइट
साइट साइट साइट
साइट साइट साइट
साइट साइट साइट साइट
साइट साइट साइट
साइट साइट साइट साइट
साइट साइट साइट
साइट साइट साइट साइट
साइट साइट साइट साइट
साइट साइट साइट साइट साइट
साइट साइट साइट साइट साइट
साइट साइट साइट साइट साइट साइट
साइट साइट साइट साइट साइट साइट साइट
साइट साइट साइट साइट साइट साइट साइट साइट | की मैर-नटोनी का लाग लेना चाहला है, यह
1 नियत आवश्यक रसावेज सोमवार, 12 फावरी
वीनदरा दां उतंस उतंस्य अधिकतां क्यांत सेस्स
वीनदरा दां उतंस उतंस्य अधिकतां क्यांत सेस्स
5-208, असारकों जीभरेल्टा ह खास्तांतों की
www.nesindia.com पर भी, लिन पर कंपनी के
ए. आप हमें इस पर्य पर पत्र भेज सकते हैं:
मि एस.के. पाठी
कप्पनी साविध
इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड
इंजीनियर्स इंडिया लिभिटेड
इंग्ली प्रदान गाउठा कि हा का
स्थार प्रतार का का स्थान
क्यां के सावध
क्यां के सावध
के | No. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of %5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (n ₹) - Diluted (in ₹) | Ouarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.35 6.35 6.35 6.36 * | ND NII
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vil)
148325.7E
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 19.56 19.51 have been prepa abeve been prepa 3byAudit.Commit | NTHS I
the Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
16742.10
16742.10
16742.10
12430.50
14099.50
2392.41
11.19
11.19
11.17
red in accordance
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82
95339.93
17.01
16.98
e. with and com
kegulation 33 c
pheldon 29 Jan | O 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 ply in all materian uary 2024.Thel | CEEME (₹ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.42 Haspects with this Exchange Boas Boased of Director
 | BER, 20
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.122023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67
21940.51
25166.03
5640.94
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
19.64
1 | 23
pt earning
pD
hs Ended
31122022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
ng Sandardis (J)
ng Sa | Year End
31.03.20
(Audited
563364.0
25599.1
25599.1
25599.1
20215.1
4784.1
95665.1
95665.1
17.1
(17.7
17.1
17.7
17.1
17.1
17.1
1
 |
| ाथ है कि उजर
तो के जेना के क
लिमिटेड, 2C
पास वा इंमेल
ताइट अफ्श-ट
ताइट अफ्श-ट
ता के लिमिटेड
र हैं।
नहायला के लिमिटेड
प्र हैं।
नहायला के लिमिटेड
प्र ते कि क
क्र पर-तुक-
-गैतानी विकय सुब
क्र वारिस्ये
तारि विकय सुब
लिमिटेड क
वारिय के क
क्र वर्षा
लिसिटेड
स्र निय
स्र निय
के क
क
क
क
न पर-तुक
- 110073
त्ल्ली - 110073 | की सैर-जटरीती का लाग लेगा चाहता है, यह
नियत आवश्यक दलावेन गोम्यार, 12 फायरी
गीनदुर, वर्स अंतल अर्थमकती आर्थात मेस्स
गीनदुर, वर्स अंतल अर्थमकती आर्थना
दूरों तर खेखेकाओ.com पर चुंदु जारी।
तुरों तर खेकेकाओ.com पर चुंदु जारी।
तुरों तर खेकेकाओ.com पर चुंदे जारी
तुरों तर खेकेकाओ.com पर चुंदे जारी
तुरों तर खेकेकाओं रहा है
भी एस, पर चुके
जज्जनी गोंग्रे
देवी का महमें इस परे पर पत्र भन्म तकते हैं.
भी एस, प्रदा के प्रतिष्ठे
इंजीविल्स इंडे गा जिनेटेड
इंजीविल्स इंडे गा जिनेटेड
इंजीविल्स इंडे गा जिनेटेड
इंजीविल्स इंडे गा जिनेटेड
हरता, / स्तद का प्रत
करने गोंग्रे
निर्मे राष्ट्री का मिनिटेड
हरता, / स्तद का प्रत
करने तरीक
हरता, / स्तद का प्रत
करने तरीक
हरता, / स्तद का प्रत
का मिनि
वा मानिस
ना स्तर 1, 54,54,24,24,20 (ए, एक कहते प्रत
की प्रति होते के गा सिंद जा का का स्वाय, इंडेवन
हरता के गा से का प्रति स्थित के गा सिंद
ना स्तर, के पात के प्रत से पार
का सीक, हे का की प्रतर्ट)
(संकडकत की य गारंट)
(संकडकत की य गारंट)
(संकडकत की य गारंट)
(संकडकत की य गारंट)
(संकडकत की प्रत परंट)
(संकडकत की य गारंट) | No. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 7. 7. 10. 7. 7. 10. 7. 7. 10. 7. 7. 10. 7. 7. 7. 7. 7. 10. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of %5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Shed tate Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (in %) - Dituted (in %) = above unaudited consolidated financial results of R R der Sachon 133 of the Companies Ad, 2013 ('thm as a above unaudited consolidated financial results of R R are above unaudited consolidated financial results of R R are above unaudited consolidated financial results of R R are above unaudited consolidated financial results of R R are above unaudited dosselected above. | Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.35 6.34 churdthr fels senterviewed and setatutory author fels setatutory author fels
 | ND NII
r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Rofer Note
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 1 488379.55 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 <td>NTHS I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I</td> <td>Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82
95339.93
17.01
16.98
e.with and com
Regulation 32 c
gheld or 29 Jan
eld review com 29 Jan</td> <td>31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 Oly in all materia 15 ecurities and usion on the unissue of \$17.96</td> <td>CEEME (१ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 9534.56 2392.41 6.43 6.42 laspacts with the Exchange Boa Board of Director 9.99 lakhs) com</td> <td>BER, 20 Lakhs excee DNSOLIDATE Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 20035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.59 e Indian Account of Indian (Listis s at their meetinging of (b) 1.83</td> <td>23
pt earning
iD
hs Ended
31122022
(Audited)
410327.90
(Audited)
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
100
17070.00
16770.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.</td> <td>yper sha 31.03.20 (Audited 563364.0 25599.1 26599.2 20215.1 20215.1 95665.1 17.1.7.1 17.1.7.1 IndAS) noti usary 2024 h.01 indAS) noti usary control for the state of \$5 e.</td> | NTHS I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82
95339.93
17.01
16.98
e.with and com
Regulation 32 c
gheld or 29 Jan
eld review com 29 Jan | 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 Oly in all materia 15 ecurities and usion on the unissue of \$17.96
 | CEEME (१ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 9534.56 2392.41 6.43 6.42 laspacts with the Exchange Boa Board of Director 9.99 lakhs) com | BER, 20 Lakhs excee DNSOLIDATE Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 20035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.59 e Indian Account of Indian (Listis s at their meetinging of (b) 1.83 | 23
pt earning
iD
hs
Ended
31122022
(Audited)
410327.90
(Audited)
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
100
17070.00
16770.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070.00
17070. | yper sha 31.03.20 (Audited 563364.0 25599.1 26599.2 20215.1 20215.1 95665.1 17.1.7.1 17.1.7.1 IndAS) noti usary 2024 h.01 indAS) noti usary control for the state of \$5 e. |
| प है कि उपय है
के केलनी के केलनी के केलनी के
लिमिटेड, 20
पास वा होने
हिसिस्टेड
के ही
हिसिस्टेड
के केलने कि
के केलने के कि
के केलने कि
के केलने कि
के केलने के कि
के के केल के के
का पर पूर्व
के केलने कि
के के के के का क
का पर पूर्व
के के के का क
का पर पूर्व
का प्र
का प्र
का का क | सी मैर-मटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
1 नियत आवश्चक रसावेज सोमवार, 12 फारवे
वीनदुर से अंतरा अधिकतां आपते सिंस
वीनदुर से अंतरा अधिकतां आपते सिंस
गुरा तम खेबकांसे.com पर पूर्व जारां
ngneesindi.com से रहीं।
प्राण्ठां के खेकांसे.com पर पहुंच जारां
ngneesindi.com से रहीं।
बार्जा तमें द्वारा परे पत्र भज सकते हैं:
सी एस.ते. पाढी
कज्यनी सींद
स्वीती सिंस हिंदिया सिनिटेड
इंग्रेसिय आदी
कज्यनी सींद
स्वीत आदी सिनिटेड
इंग्रेसिय मंद्री सिनिटेड
इंग्रेसिय मंद्री तिकारिड
हस्ता./-
स्व.क. पाढी
कर्मन से सिंह
सिन्स के स्वीतिय से सिन्द
स्वात का सामिति सिंह
कर्मन स्वीतिय से सिन्द
स्वात का स्वीतिय से सुभार्गका सामित्र
देखें)
व मोटिस
मार्जेक्स व्यार युव स्वर्गीय सी मोहिर सिंह) सीकेसे
(होपसाईटर, संबरूकार्स और पारंटर)
(संबरुकत वीनरा स्वीत प्राप्त सामित्र)
होस्ट्री के सापले के प्राप्तिय का का सामित्र
के सीहिर सिंह के मध्यम से, निसासी सिकेस
मार्जा का प्राप्त कि सिंह का का स्वाय, इंडिया
ला सामित्र, कि स्वी स्वीत ही कि सि का का बास होड़ा
सामा | No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
17.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/ per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as al Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (n ₹) - Diluted (in ₹) = above unsulted consolidated financial results of RR exerves excluding Revaluation Reserves as al Balance Sheet date Earnings or share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (n ₹) = above unsulted consolidated financial results of RR move Sheet date as better of the Companes Act, 2013 ('the ac equirements) Regulation, 205 (Listing Regulation), 205 as above unsulted consolidate financial results of RR move and 30 September 2023, the Companes and sparse price from serves and anse price of 10.5 per share basever | Ouarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.33 6.33 6.34 Character of the sentencies 9588.11 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.33 6.33 6.34
 | Image: state of the company in the company | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 19.56 19.51 have been prepare there under prepare sprender prepare sprender sprend | NTHS I
The Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
16742.10
16742.10
16742.10
12430.50
14099.50
2392.41
11.19
11.17
red in accordance
and in terms of the the ended
the set its meeting
sed an unmodified
sed at an inserved of the set its meeting
sed at an inserved of the set its meeting
set of the set its meeting
set of the set its meeting
set of the set of the s
 | Year Ended
31.03.2023
(Audited)
563364.05
25504.74
25504.74
18892.85
20416.07
4784.82
95339.93
17.01
16.98
e with and com
tegulation 32
gheld on 29 Jan
eld review cond
(including fresh
price of 7.103 | 2 31 DI
Quarte
31.12.2023
(Unaudited)
164576.37
9591.98
9591.98
7095.84
7512.37
5640.94
7512.37
5640.94
6.35
6.34
00 mil materian
6.35
6.34 | CEEME (१ in) Cr Inded 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vil) 148325.78 9534.56 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.43 6.42 Spacts with the Exchange Board of Director naudited consol 9.99 labs confer for some to other some to oth | BER, 20
Lakhs
exce
NSOLIDATE
Nine Mont
31.122023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67
21940.51
25166.03
5640.94
19.64
19.59
e Indian Account
of India (Listi
s at their meeting
idated financial a
prising of (0).13.8
(0).13.86
e equid) 11.306
e equid) 11.30 | 23
pt earning
pD hs Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
11.22
11.19 | year End 31.03.20 (Audited 563364.0 25599.1 25599.2 25599.2 18987.1 20215.3 4784.1 95665.1 17.7.1 17.47.1 17.43.5) notiliar of Biodesh and Biodesh and area of 56.5 |
| य है कि उसने
के जेजनी के के जेजनी के के जेजनी के कि
तिनिप्टेंद, यह पाय वा इंदेन
तिनिप्टेंद, यह उसने के कि
द्वारा के लि
दिनिप्टेंद हो
दिनिप्टेंद के कि कि कि कि कि कि कि कि कि
दिनिप्टेंद के कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि
दिनिप्टेंद के कि कि
कि कि क | की सैर-जटरीती का लाग लेगा चाहता है, यह
नियत आवश्यक दलावेन गोम्यार, 12 फायरी
गीनदुर, वर्स अंतल अर्थमकती आर्थात मेस्स
गीनदुर, वर्स अंतल अर्थमकती आर्थना
दूरों तर खेखेकाओ.com पर चुंदु जारी।
तुरों तर खेकेकाओ.com पर चुंदु जारी।
तुरों तर खेकेकाओ.com पर चुंदे जारी
तुरों तर खेकेकाओ.com पर चुंदे जारी
तुरों तर खेकेकाओं रहा है
भी एस, पर चुके
जज्जनी गोंग्रे
देवी का महमें इस परे पर पत्र भन्म तकते हैं.
भी एस, प्रदा के प्रतिष्ठे
इंजीविल्स इंडे गा जिनेटेड
इंजीविल्स इंडे गा जिनेटेड
इंजीविल्स इंडे गा जिनेटेड
इंजीविल्स इंडे गा जिनेटेड
हरता, / स्तद का प्रत
करने गोंग्रे
निर्मे राष्ट्री का मिनिटेड
हरता, / स्तद का प्रत
करने तरीक
हरता, / स्तद का प्रत
करने तरीक
हरता, / स्तद का प्रत
का मिनि
वा मानिस
ना स्तर 1, 54,54,24,24,20 (ए, एक कहते प्रत
की प्रति होते के गा सिंद जा का का स्वाय, इंडेवन
हरता के गा से का प्रति स्थित के गा सिंद
ना स्तर, के पात के प्रत से पार
का सीक, हे का की प्रतर्ट)
(संकडकत की य गारंट)
(संकडकत की य गारंट)
(संकडकत की य गारंट)
(संकडकत की य गारंट)
(संकडकत की प्रत परंट)
(संकडकत की य गारंट) | No. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 77. 77

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Paid up Equity Share Capital (face value of %5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Baisc (n ₹) - Diluted (in ₹) : e above unaudited consolidated financial results of RR as down audited consolidated financial results of RR more and 31 Deconductation fancarises thave be proved the above results and taken them on record. The asise prior 31 (Sp Fraher Gowards fresh issue of conf 33 or parts and for employee quala towards thefthis asis prior 31 (Sp Fraher Bowards fresh issue of conf 53 or par share for employee quala towards thefthis e Company has setting 41 (SAES Quarters and Sis epidemice 7023). the Company ins setting the parts for employee quala towards thefthis e Company has setting 41 (SAES Quarter and 30 Segmenter 2023). the Company is the parts for employee quala towards thefthis excempt for the Companies and the face for Sis of the Company is the setting 41 (SAES Quarter and 41 (SAES Quarter and 41 Segmenter 2023). the Company is the parter and for employee quarter and as the pole excempt for the setting 41 (SAES Quarter and 41 Segmenter 2023). the Company is the setting 41 (SAES Quarter and 41 Segmenter 2023). the Company is the setting 41 (SAES Quarter and 41 Segmenter 2023). the Company is the setting 41 (SAES Quarter and 41 Segmenter 2023). the Company is the setting 41 (SAES Quarter and 41 Segmenter 2023). the Company is the setting 41 (SAES Quarter and 41 Segmenter 2023). the Company is the setting 41 (SAE | Ouarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.33 Kabel Limited (*) 101 requiry and with relations of the equity shares (find equiry and the equiry shares (find equir
 | Image: straight of the company in the compa | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 19.56 19.51 have been prepare Styphares of \$\$ Styphares of \$\$ Styphares of \$\$ | Image: Normal Science Image: Science 1112:2022 (Maddied) (Maddied) (Refer Note vii) 16742:10 16742:10 16742:10 16742:10 12430:50 2392:41 111.19 11.17 red in accordance accordance exit the meeting seed an unmodified feed that meeting seed an unmodified 96:400:51 lakhs acch at an issue when the compositional Stakes acch at an issue when the compositional Stakes
 | Year Ended 31.03.2023
(Audited) 563364.05 25504.74 25504.74 18892.85 20416.07 4784.82 95339.93 17.01 16.98 ewith and com
Regulation 33 c
gheld on 29 Jant
led review condition of 71.035
cock Exchange (
including fresh
tock of 47.035 | 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 9byin all materia securities and S | CEEMEE (₹ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vil) 148325.78 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.43 6.43 6.43 6.42 Soard of Director naudited consol 9.99 laks) compt softer kerken harmeholders 29
 | BER, 200
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67
21940.51
25166.03
5640.94
19.64
19.59
e Indian Account
of Indian (Listi
s at their meeting
iddaed financial
prising of (i) 1.83
(ii) 11.960 equily 1.83
(iii) 1.860 equily 1.85
(iii) 1.8 | 23
pt earning
pD as Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
standard, 07
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators | per sha Year End 31.03.20 (Audited 563364.0 25599.1 25599.2 25599.2 20215.1 4784.1 95665.1 17.1/1.1 Ind AS) notiliario Disclosionaria di Scienti and Indicato and Discienti and Indicato and Disclosionaria di Andia di |
| य है कि उसने
के केलनी के केलनी के केलनी के
लियिन्द्रे, 20 प्राप्त या इंदेशने
हो हायता के लिये हो
हायता के लिये हो
लियिन्द्र हो
लियिन्द्र हो
लियिन्द्र हो
के बोबामंडी टक्स
के बोबामंडी टक्स
के बीबामंड प्रस्तु के
लिया के बिताम युद्ध
के बार्ट के बार
के बार प्रस्तु के
के बार के कि ना 1903
के बार के बार का कि ना 1903
के बार के बार के कि ना 1903
के बार के बार के कि ना का कि ना 1903
के बार के बार के कि ना की कि ना की कि का की कि का की | की सैर-कटोनी का लाग लेग चासला है, यह
नियक आवश्यक दलावेन गोम्यार, 12 फारले
विंग्स्ट्रा अंत आंतरा अर्थमता क्षेत्रां में
विंग्स्ट्रा अंत आंतरा अर्थमता क्षेत्रां में
विंग्स्ट्रा के बिक्रोकोट का जी स्टर्जेक एक्सकों की
www.nesindia.com पर भी, लिग पर कंमनी के
ए. आह प्रदे हरा पते पर पत्र भेक सकते हैं.
बी एक. प्रा की किल्टेड
केन्द्री राज की किल्टेड
केन्द्री के का सामितिड
केन्द्री के का मार्थ के स्टर्क
बे हर्ल्डा ना की किल्टिड
हेन्द्रा ना किल्टिड
केन्द्री के का मार्थ के स्टर्क
बे हर्ल्डा ना की किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्रा ना की किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्र ना स्टर्क का किल्टा होन्द्रा तिनिटेड
हा ता / न्
हा ना किल्टा के कि के विंग्स के किल्टा ना
विंग्स्ट के कि के ना किल्टा के का किल्टा ना
के कि किल्टा के कि के कि किल्टा के कि कि कि
मार्किय
वा कि ना, बिंग्स के की प्राइट्र)
की इतिहान लेगरा के पायल में कि का किल्टा
हो किंग्सी के का का करना ही है जा
की किंग्स के का करना करना ही कि का
का ता कि ना, बिंग का की कि कर का करना हुकिन
करा का का की स्टाइट के का करा का
प्रा के ना का की किंग कर का करना, इतिना
करा का का की किंग कर का करना, इतिना
करा का का करा करा ना ना का किंक का
करा हा की ना ना ना ना करा का कि करा का
का ना करा करा का का का का का का का
प्रा के का का का करा का का का का का का
प्रा के का का
करा करा का का
प्रा के का | No. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10 17. 10 17. 11 17. 12 10. 13 10. 14 10. 15 10. 16 10. 17. 10. 18 10. 19. 10. 10. 10. 11. 10. 12. 10. 13. 10.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of %5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (in ?) - Diluted (onsolidated francal results of RR R) exposed the above results of the Company (2017) = a bove unaudited consolidated francal results of RR R) sequements) Regulations, 2015 (Listing Regulation), as a above unaudited consolidated francal results of RR R) an above unaudited consolidated francal results of the Compare (2013) (The ac equirements) Regulations, 2015 (Listing Regulation), and a notice of 130 per share towards then hisuso (or 1430 per share tow | Ouarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.33 Kabel Limited (*) 101 requiry and with relations of the equity shares (find equiry and the equiry shares (find equir | Image: straight of the company in the compa | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 19.56 19.51 have been prepare Styphares of \$\$ Styphares of \$\$ Styphares of \$\$
 | Image: Normal Science Image: Science 1112:2022 (Maddied) (Maddied) (Refer Note vii) 16742:10 16742:10 16742:10 16742:10 12430:50 2392:41 111.19 11.17 red in accordance accordance exit the meeting seed an unmodified feed that meeting seed an unmodified 96:400:51 lakhs acch at an issue when the compositional Stakes acch at an issue when the compositional Stakes
 | Year Ended 31.03.2023
(Audited) 563364.05 25504.74 25504.74 18892.85 20416.07 4784.82 95339.93 17.01 16.98 ewith and com
Regulation 33 c
gheld on 29 Jant
led review condition of 71.035
cock Exchange (
including fresh
tock of 47.035 | 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 9byin all materia securities and S | CEEMEE (₹ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vil) 148325.78 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.43 6.43 6.43 6.42 Soard of Director naudited consol 9.99 laks) compt softer kerken harmeholders 29
 | BER, 200
Lakhs exce
DNSOLIDATE
Nine Mont
31.12.2023
(Unaudited)
488379.55
30035.67
30035.67
21940.51
25166.03
5640.94
19.64
19.59
e Indian Account
of Indian (Listi
s at their meeting
iddaed financial
prising of (i) 1.83
(ii) 11.960 equily 1.83
(iii) 1.860 equily 1.85
(iii) 1.8 | 23
pt earning
pD as Ended
31.12.2022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
standard, 07
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators
collegators | per sha Year End 31.03.20 (Audited 563364.0 25599.1 25599.2 25599.2 20215.1 4784.1 95665.1 17.1/1.1 Ind AS) notiliario Disclosionaria di Scienti and Indicato and Discienti and Indicato and Disclosionaria di Andia di |
| य है कि उसपे
ते केपनी के केपनी के केपनी के केपनी के
तिनिपेटेंड, 20
याप या होने
हिनिपेटेंड, 20
ही हिनिपेटेंड, 20
ही हिनिपेटेंड
र 19
दिनिपेटेंड
र 19
दिनेपेटेंड
र 19
दिनेपे
र 19
दिनेपेटेंड
र 19
दिनेपेटे
र 19
द
र 19 | की सैर-कटोनी का लाग लेग चासला है, यह
नियक आवश्यक दलावेन गोम्यार, 12 फारले
विंग्स्ट्रा अंत आंतरा अर्थमता क्षेत्रां में
विंग्स्ट्रा अंत आंतरा अर्थमता क्षेत्रां में
विंग्स्ट्रा के बिक्रोकोट का जी स्टर्जेक एक्सकों की
www.nesindia.com पर भी, लिग पर कंमनी के
ए. आह प्रदे हरा पते पर पत्र भेक सकते हैं.
बी एक. प्रा की किल्टेड
केन्द्री राज की किल्टेड
केन्द्री के का सामितिड
केन्द्री के का मार्थ के स्टर्क
बे हर्ल्डा ना की किल्टिड
हेन्द्रा ना किल्टिड
केन्द्री के का मार्थ के स्टर्क
बे हर्ल्डा ना की किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्रा ना की किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्रा ना का किल्टिड
हेन्द्र ना स्टर्क का किल्टा होन्द्रा तिनिटेड
हा ता / न्
हा ना किल्टा के कि के विंग्स के किल्टा ना
विंग्स्ट के कि के ना किल्टा के का किल्टा ना
के कि किल्टा के कि के कि किल्टा के कि कि कि
मार्किय
वा कि ना, बिंग्स के की प्राइट्र)
की इतिहान लेगरा के पायल में कि का किल्टा
हो किंग्सी के का का करना ही है जा
की किंग्स के का करना करना ही कि का
का ता कि ना, बिंग का की कि कर का करना हुकिन
करा का का की स्टाइट के का करा का
प्रा के ना का की किंग कर का करना, इतिना
करा का का की किंग कर का करना, इतिना
करा का का करा करा ना ना का किंक का
करा हा की ना ना ना ना करा का कि करा का
का ना करा करा का का का का का का का
प्रा के का का का करा का का का का का का
प्रा के का का
करा करा का का
प्रा के का | No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (darfer Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/.per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualleed for the Quarters and nine months) - Basic (n ₹) - Diluted (in ₹) = teolow unaudited consolidated financial results fore have equirements) Regulations, 2015 (Luiting Regulation), as the above unaudited consolidated financial results for the Shore of 30 10 becomber 2023 to note endod 30 Becenter 2023, at Compar an assue price of 41.035 per share towards then his use of 1537 per share shares (too 1542 co latish as POOr co 1537 per share shares (too 1542 co latish as POOr co 1537 per share towards then his use of the company has estimated 110,684.20 latish as Bore of 1537 per share towards then his use) | Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.33 Kabel Limited (*1)* read with relearended encreviewed ance estatuting validations (in such three for markets use. The equity hatmas (in such three for for sales use. The equity hatmas (in such three for for sales use. The equity hatmas (in such three for for sales use. The equity hatmas (in such three for for sales use. The equity hatmas (in such three for for sales use. The equity hatmas (in such three for for sales use. The equity hatmas (in such three for for sales use) and the such three for for sales use. The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in such three for for sales use). The equity hatmas (in | Image: second | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 219549.44 21854.28 5 5640.94 5640.94 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 1 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
 5 5 5 5 5 5 5 5 | Image: Normal Science Image: Normal Science 1112:2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 1011:2022 (Unaudited) 1111:2022 (Unaudited) 1111:2022 16742.10 111:2023 16742.10 111:2023 16742.10 112:430.50 14099.50 2392:41 11.19 111.19 11.17 red in accordiance and on National Stables acar Autor off (PS Stables) acardia on National Stables 196:400.95 tables acarried out at
 | Year Ended 31.03.2023 (Audited) 563364.05 25504.74 25504.74 25504.74 18892.85 20416.07 4784.82 95339.93 17.01 16.98 awith and com
Regulation 33 cg
pheld neview cand
(including freathories of 1.035
ock Exchange (the 2.034) (including freathories of 1.035
ock Exchange (the compt of 1.035
ock Exchang | 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 ply in all material of Securities and wary 2024. The I duards on the unissue of ₹17,95 per share towarn SNE) and Borth the and selling is total amount at total amount at so of the Compa | CEEME (₹ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.42 Bapecks with thr Exchange Boas 8.0ard of Director 9.99 lakhs) com 9.99 lakhs) com 9.99 lakhs) com 9.99 lakhs) com 9.90 lakhs)
 | BEER, 202 Lakhs excee Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 30035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.59 Indian Accounts prising of (i) 1.83 | 23
pt earning
D
hs Ended
31122022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.22
11.22
5.09 equily th
held on 29 June Stoffert | year End
31.03.2021
(Auditec
563364.(
25599.1)
25599.1)
25599.1)
18987.2
20215.2
20215.2
20215.2
20215.2
20215.2
20215.2
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0 |
| य है कि उपय
से केवनी के केवनी के
तियिटेड, 20 प्राय में होने
तियिटेड 20 प्राय में होने
हायता के लि
सिंग्रेटंड
हायता के लि
सिंग्रेटंड
हायता के लि
सिंग्रेटंड
होने के की का
स्वी निवाय पुषा
सिंग की किया पुषा
से की का का
स्वी निवाय पुषा
स्वी निवाय पुषा
स्वी निवाय पुषा
स्वी ना 10027
स्वी की का का
स्वी ना 10027
से की का
स्वी ना 10027
से की का का
स्वी ना 10027
से की का का
स्वी ना 10027
से की की की का
स्वी ना 10027
से की की का
स्वी ना 10027
से की की का
स्वी ना 10027
से की | की मैर-नटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
1 नियत आवश्वक रसावेज सोमवार, 12 फायरी
वीनदुरा दर्श अंतर अधिकतां जिपलेस, इंडीवाला-
द्वारा तर्थ खेबकांसे.com पर पहुंच जाएं।
त्राजा तर्थ खेबकांसे.com पर पहुंच जाएं।
त्राजा तर्थ खेबकांसे.com पर पहुंच जाएं।
त्राजा कर स्टोल प्रस्तार्थ के स्टोल प्रस्तार्थ के
प्र. आप हमें द्वरा परे पत्र पत्र पत्र पत्र के स्टोल
क्रम्पो चीनदे
इंजीनियर्स इंडिया निथिटेड
इंजीनियर्स इंडिया निथिटेड
इंडिया क्रिडिया निथिटेड
इंडिया क्राक्रिय क्रिड्या निथित्त
क्रम्पनी तार्थ तार्ग नई हिंडी
व्या क्रम्पि हाम क्रम्प्रिय के स्टिप्
क्रम्पनी तार्थ का नार्थ कि क्रिया क्रिडिया
कर्मा तार्थ
क्रम्पनी तार्थ का नार्थ कि क्रिया क्रिडिया
कर्मा तार्थ
कर्मा का क्रिडिया कि क्रिड्या कि क्रिड्या
कर्मा क्रमिय्टिक क्रम्प्
कर्मा क्रमिय्टिक क्रम्प्
कर्मा क्रमिय्टिक क्रम्प्
कर्मा क्रमिय्ट के क्रांप्
कर्म क्रमिय्ट कि के म्रायन्त के क्रम्प्
कर्मा के क्रिक्ट के क्रांप्
कर्मा के क्रिडिया कि क्रम्प्
कर्मा क्रांप् क्रांप्
कर्मा के क्रम्प्
कर्मा के क्रम्प्
कर्मा के क्रिक्ट के क्रांप्
कर्मा के क्रिक्ट के क्रांप्
कर्म कर्मा के क्रिक्ट के क्रांप्
कर्म क्रांप्
कर्म कराम कि कि कि कर का क्रम्प्
क्रांप्
कर्म कर कर्म क्रांप्
कर्म कर क्रांप् क्रांप्
कर्म कर कर कर कर कर कर क्रांप्
कर्म कर क्रांप्
कर्म कर कर
कर कर कर कर कर कर क्रांप्
कर क्रांप्
कर क्रांप्
कर कर क | No. I 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 7. 8. 1. 9. 7. 9. 7. 9. 7. 9. 7. 9. 7. 9. 7. 9. 7. 9. 7. 9. 7.

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of 25/- per share) Reserves soculding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Baic (n 7) - Dituted (in 7) - Dituted (in 7) - Dituted (in 7) - Company assume 2013, per share for employee quata tawards thein the assue priore 71.3 of the Companies Act, 2013 ("The ac parter and 30 September 2023, the Company and the advar tended 30 September 2023, the Company and Stare Starts of the Share Starts of the Company and the fore advards 10.66.20 (advards and for advards thein the balace Company assumed 71.06.24 (balace Reputation), aguited to societate of annotation (Share of Companies advards thein the balace Company takes date Company assumed 71.06.24 (balace Reputation), aguited to societate of Theradiated Company takes date Company takes date Company takes advards Company takes date Compa | Cuarter Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.33 Kabel Limited (* enerdevide anerneviewed exercises are rotifier for sale brider sector 132 inder sector 132 icias during the acquiry thats completed acquiry shares (in class during the acq | Image: second | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 21959.93.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 2195.5 19.56 19.51 have been prepared there under a systematic sys
 | Image: Normal Science Image: Science Image: Science 31.12.2022 Unaudited: Vill 11.12.2022 Unaudited: Vill 11.02.2022 16742.10 16742.10 16742.10 16742.10 12430.50 14099.50 2392.41 11.19 11.17 11.17 red in accordance acardiant States action and in terms of F 166.40.05 lashs acard an unmodified out at eals, charinGatorial States acardia dout at eals, chardiant States acard out at eals, chardiant States acard out at eals, chardiant States acard out at eals, chardiant States acardia dout at eals, chardiant States acardiant out at eals, chardiant out at eals, chardiant States acardiant out at eals, chardiant Sta
 | Year Ended 31.03.2023
(Audited) 563364.05 25504.74 25504.74 18892.85 20416.07 4784.82 95339.93 17.01 16.98 ewith and com
Regulation 33 c
gheld on 29 Jan ed review cond
(including fresh
noice of 7.1032, the
certain premises, and documy
9 79.64 Statemage (including fresh
noise and the premises) | 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 9591.98 9591.98 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 9byin all materia uary 2024. The lausion on the unateria uissue of 17.96 9c that Bornth so the Compa 9s to tal amount at so the Compa so the Compa so the Compa 9s The Towns | CEEMEE (₹ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 9534.56 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.43 6.43 6.42 Board of Director appl lakhs) compt 9.9 lakhs) compt <td>BEER, 202 Lakhs exce Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 30035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.59 el Indian Account of Indian (Listi s at their meeting in (1).63 (B).77.75 lakhs in company amoun es of some of its evided any comme of its evided any comment</td> <td>23
pt earning
pD
hs Ended
31122022
(Audied)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
13905.60
2392.41
11.22
11.19
90 Standards (J)
11.22
11.19
11.22
11.19
11.22
11.19</td> <td>per sha Year End 31.03.202 (Auditec 563364.0 25599.1 25599.1 18987.2 20215.3 4784.8 95665.5 17.0.7,0 17.17,10 17.0.2024 hn uares of 7.5 explore and han is laken has be exployed and han has be exployed and han has be exployed and han han be normerological laken has be</td> | BEER, 202 Lakhs exce Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 30035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.59 el Indian Account of Indian (Listi s at their meeting in (1).63 (B).77.75 lakhs in company amoun es of some of its evided any comme of its evided any comment
 | 23
pt earning
pD
hs Ended
31122022
(Audied)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
13905.60
2392.41
11.22
11.19
90 Standards (J)
11.22
11.19
11.22
11.19
11.22
11.19 | per sha Year End 31.03.202 (Auditec 563364.0 25599.1 25599.1 18987.2 20215.3 4784.8 95665.5 17.0.7,0 17.17,10 17.0.2024 hn uares of 7.5 explore and han is laken has be exployed and han has be exployed and han has be exployed and han han be normerological laken has be |
| य है कि उपय है
के जेवनी के केवनी के केवनी के केवनी के
तिनिप्टेंड, 20
पास वा होने
हिनिप्टेंड, 20
हिनिप्टेंड, 20
हिनेप्ट, 20
हिनेप्ट, 20
हिनेप्ट, 20
हिनिप्ट, 20
हिनेप्ट, 20
हिनेप, 20
हिनेप, 20
हिनेप, 20
हिनेप, 20
हिनेप, 20
हिनेप, 20
हिनेप, 20
हिने | सी मैर-मटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्क रसावेज सोमवार, 12 फारवे
वींगदर, यं अंतरा अधिकतां आपते सिंस
वींगदर, यं अंतरा अधिकतां आपते सिंस
वींगदर, यं अंतरा अधिकतां आपते सिंस
गुजा सर्व खेवाकांशे.com पर पहुंच जाएं।
त्राजा कर्ष कर्वा कर रंडील पर कंतरा है हैं
भी एस.के. पावी
कर्जनी संदिय
कर्जनी संदिय
क्रि. भी एस.के. पावी
कर्जनी संदिय
क्र. भी क्र. क्र. कर्जनी
कर्जनी क्र. मार्ग स्वित्त
क्र. मां क्र. क्र. मां क्र.
क्र. क्र. क्र.
क्र. मां क्र.
क्र. मां क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्.
क्.
क्.
क्.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क | No. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 77. 77

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit fifer tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit after tax (Share of Owners of the Company) (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of 25/- per share) Reserves acuding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Baic (n 7) - Dituted (in 7) - Dituted (in 7) - Dituted (in 7) - Company as active or and 30 September 2023, the Company and un sinse prior of 1.25 per share Shared 70.87, and and a set by the company and un guarter and 31 Exemised 70.87, and and and a gentment regarding the outcome of the Section 133 of the Section 233, the Company and un guised to socuritize the share for employee quala towards thethin the isou of Company tas estimated 70.85, 2018, and | Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.33 8440 Limbed (*1 three equity that expenses are refereded.ease are refered for sale b nder section 132 clicial during the sale of the son attrictions for the sale of the son attrictions for the son that educes and the son that the desent attrictions for the son the son the son the son the son the son the desent attrictions for the son thattrictions for the son th | Image: second | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 19.56 19.51 have been prepared there under and pharma cells for any have expression of \$5 may have expression of \$5 m
 | Image: Normal Science Image: Normal Science 1112:2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 1011:2022 (Unaudited) 1111:2022 (Unaudited) 1111:2022 (Unaudited) 1111:2023 16742.10 1111:2023 16742.10 1111:2023 12430.50 1111:2023 2392.41 1111:2023 111.19 111.19 111.17 red in accordance aneordan and on National Stahts seach at an issue je 196.400.95 lakhs seach at an issue je as carried out at tealis, clainficational areauts, there is the compare and an issue je an issue je 196.400.95 lakhs and an issue je an issue je 196.400.95 lakhs antificational and issue issue the compare and an issue je an issue je 196.400.95 lakhs antificational and issue issue the compare and an issue je an issue je 197.400.95 lakhs antificational and an issue je an issue je 198.400.95 lakhs antificational and an issue je antificational an issue je
 | Year Ended 31.03.2023 (Audited) 563364.05 25504.74 25504.74 25504.74 18892.85 20416.07 4784.82 95339.93 17.01 16.98 with and com segulation 32 dan ide review condition of the tops of tops o | 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 plyin all material discurtles arrive securities arrive sissue of ₹17.96 per share towar NSE) and Borits so of the Compaents. The Compaend Starts. The Comp | CEEME (₹ in) (₹ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (@ster Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.42 aspects with thr Exchange Boreonaudited consol 9.99 lakhs) comp 9.90 lakhs) comp <td>BEER, 202 Lakhs excee NSOLIDATE Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 30035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.64 19.65 ather meclanical inprising of (i) 1.83 prising of (i) 1.83 ather meclanical inprising of (i) 1.83 prising of (i) 1.83 ancial results, ancial resul</td> <td>23
pt earning
D
hs Ended
31122022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.1</td> <td>year End
31.03.202
(Auditec
563364.0
25599.1
25599.1
18987.2
20215.5
20215.5
20215.5
20215.5
20215.5
20215.7
20215.7
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17</td> | BEER, 202 Lakhs excee NSOLIDATE Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 30035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.64 19.65 ather meclanical inprising of (i) 1.83 prising of (i) 1.83 ather meclanical inprising of (i) 1.83 prising of (i) 1.83 ancial results, ancial resul | 23
pt earning
D
hs
Ended
31122022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.12
11.1 | year End
31.03.202
(Auditec
563364.0
25599.1
25599.1
18987.2
20215.5
20215.5
20215.5
20215.5
20215.5
20215.7
20215.7
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17 |
| रोग है कि उजर
रहने कंपनी के
हतमिटेड, 20
प्रस वा इंमेल
साइट www.et
साइट www.et
साइट www.et
साइट www.et
साइट www.et
साइट www.et
साइट www.et
साइट www.et
साइट का
के कि कि
माने के कि
माने के कि
माने के कि
माने के कि
मान प्रदान
के कि कि के
सामर पुत्र वर्गी
सामर पुत्र के
मान के कि
मान प्रदान
के कि के कि
सा स्वार
सा कि कि के कि
मान प्रदान
के कि के कि
सा कि कि के कि
मान प्रदान
के कि की कि
सा कि कि के कि
मान प्रता कर
के कि का
सामर प्रत कर
सा कि
मान प्रत कर
सा कि
सा कि कि की के कु
मान प्रत कर
के कि की
सा कि कि की के कु
मान प्रत कर
के कि की
सा कि कि की के कु
मान प्रत कर
के कि की
सा कि की
के कि
के कि की
के कि
के कि की
के कि की
के कि
के कि की
के कि
के कि की
के कि की
के कि
के कि की
के कि
के कि की
के कि
के कि की
के कि
के कि की
के कि की
के कि की
के कि
के कि की
के कि की
के कि की
के कि
के कि की
के की
की
के की
के की
की
के की
की
की
की
की
की
की
की
की
की
की
की
की
क | सी मैर-मटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्क रसावेज सोमवार, 12 फारवे
वींगदर, यं अंतरा अधिकतां आपते सिंस
वींगदर, यं अंतरा अधिकतां आपते सिंस
वींगदर, यं अंतरा अधिकतां आपते सिंस
गुजा सर्व खेवाकांशे.com पर पहुंच जाएं।
त्राजा कर्ष कर्वा कर रंडील पर कंतरा है हैं
भी एस.के. पावी
कर्जनी संदिय
कर्जनी संदिय
क्रि. भी एस.के. पावी
कर्जनी संदिय
क्र. भी क्र. क्र. कर्जनी
कर्जनी क्र. मार्ग स्वित्त
क्र. मां क्र. क्र. मां क्र.
क्र. क्र. क्र.
क्र. मां क्र.
क्र. मां क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्.
क्.
क्.
क्.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क | No. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 1. 10. Tr 10. Tr 11. Tr 12. Tr 13. Tr 14. Tr 15. Tr 16. Tr 17. Tr 18. Tr 19. Tr 10. Tr 11. Tr 12. Tr 13. Tr 14. Tr 15. Tr 16. Tr 17. Tr 18. Tr 19. Tr 10. Tr 10. Tr 11. Tr 12. Tr 13. Tr 14. Tr 15. Tr 16. Tr <t< td=""><td>Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of %5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (n र) - Diluted (in र) - Diluted (in र) - Easion of the Company (additional and the Section 13 of the Company) easing the Company (additional and the Section 13 of the Company) = Base working Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (n र) - Diluted (in र) - State (23, her charing a the bave maddle of Segtents 223, the Compare an answaption of 11, DSF per share towards then hissue of (137) per share and share towards then hissue of (137) per share for annualised for the Quarters and share towards then hissue - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as POTe - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estinated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has est</td><td>Cuarter Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.33 Kabel Limited (* fil-
mended:
ee statulory audit
ny has completed
equily shares (fil-
south Terroffer Grasels use. The equily fil-
ated expenses a
son. The other there for the rasels of
son the date of the rasels of
son the date to the son tamilop:
"2023.</td><td>r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer
Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
9332.5</td><td>STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 19.56 19.51 have been prepated there under off these financi of these financi off these fin</td><td>Image: Normal Science Image: Normal Science 11.12.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 10.12.2022 (Unaudited) 11.12.2022 (Unaudited) 11.12.2022 (Unaudited) 11.12.2023 (Unaudited) 11.12.2023 16742.10 11.6742.10 16742.10 12.430.50 14099.50 23.92.41 11.19 11.1.17 11.17 red in accordance anocordance ado n National Staths scarried out at easis, clarificational carlinational scarried out at easis, clarificational carlinational at easis, there on the compare as carried out at easis, clarificational carlinational carlinati carlinati carlinational carlinational carlinati carlinational ca</td><td>Year Ended 31.03.2023 (Audited) 563364.05 25504.74 25504.74 25504.74 18892.85 20416.07 4784.82 95339.93 17.01 16.98 with and com Regulation 32 can iel review control (including freash and com y € 976.45 lat 9567.45 lat cortain premisers, and docum 60 ccm, the com consolition of the C</td><td>31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 plyin all material decurities are towar NSE) and Domb so of the Compaents. The Compaents. The Compaents are only and an ompany an ompany</td><td>CEEME
((tin)
CC
F Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
146325.78
9534.56
9534.56
9534.56
9534.56
9534.56
2392.41
2392.41
6.43
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
7.56
6.42
7.45
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.5</td><td>BEER, 202 Lakhs excee Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 30035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.65 in 19.66 in 19.69 el radia Accounter rd ndra (Lusting el (9), 183 in 19.69 equilign of (9), 183 prissing of (9), 183 ancial results, encial registration and in prissing of (9), 183 ancial results, encial re</td><td>23
pt earning
D
hs Ended
31122022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
ng Sandard Saturn
2392.41
11.22
11.19
ng Sandard Saturn
2004.01
11.22
11.19
ng Sandard
Saturn
2004.01
11.22
11.19
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.2</td><td>year End
31.03.2021
(Auditec
563364.00
25599.1
25599.1
25599.1
18987.2
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3</td></t<> | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of %5/- per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (n र) - Diluted (in र) - Diluted (in र) - Easion of the Company (additional and the Section 13 of the Company) easing the Company (additional and the Section 13 of the Company) = Base working Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - Basic (n र) - Diluted (in र) - State (23, her charing a the bave maddle of Segtents 223, the Compare an answaption of 11, DSF per share towards then hissue of (137) per share and share towards then hissue of (137) per share for annualised for the Quarters and share towards then hissue - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as POTe - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estimated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has estinated 110, 054, 20 lakh as Borter - Company has est | Cuarter Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.33 Kabel Limited (* fil-
mended:
ee statulory audit
ny has completed
equily shares (fil-
south Terroffer Grasels use. The equily fil-
ated expenses a
son. The other there for the rasels of
son the date of the rasels of
son the date to the son tamilop:
"2023.
 | r Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
148325.76
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
9332.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
932.52
9332.5 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 19.56 19.51 have been prepated there under off these financi of these financi off these fin | Image: Normal Science Image: Normal Science 11.12.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 10.12.2022 (Unaudited) 11.12.2022 (Unaudited) 11.12.2022 (Unaudited) 11.12.2023 (Unaudited) 11.12.2023 16742.10 11.6742.10 16742.10 12.430.50 14099.50 23.92.41 11.19 11.1.17 11.17 red in accordance anocordance ado n National Staths scarried out at easis, clarificational carlinational scarried out at easis, clarificational carlinational at easis, there on the compare as carried out at easis, clarificational carlinational carlinati carlinati carlinational carlinational carlinati carlinational ca
 | Year Ended 31.03.2023 (Audited) 563364.05 25504.74 25504.74 25504.74 18892.85 20416.07 4784.82 95339.93 17.01 16.98 with and com Regulation 32 can iel review control (including freash and com y € 976.45 lat 9567.45 lat cortain premisers, and docum 60 ccm, the com consolition of the C | 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 plyin all material decurities are towar NSE) and Domb so of the Compaents. The Compaents. The Compaents are only and an ompany | CEEME
((tin)
CC
F Ended
31.12.2022
(Unaudited)
(Refer Note
vii)
146325.78
9534.56
9534.56
9534.56
9534.56
9534.56
2392.41
2392.41
6.43
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
6.42
4.25
7.56
6.42
7.45
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.56
7.5
 | BEER, 202 Lakhs excee Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 30035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.65 in 19.66 in 19.69 el radia Accounter rd ndra (Lusting el (9), 183 in 19.69 equilign of (9), 183 prissing of (9), 183 ancial results, encial registration and in prissing of (9), 183 ancial results, encial re | 23
pt earning
D
hs Ended
31122022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
ng Sandard Saturn
2392.41
11.22
11.19
ng Sandard Saturn
2004.01
11.22
11.19
ng Sandard Saturn
2004.01
11.22
11.19
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.20
10.2 | year End
31.03.2021
(Auditec
563364.00
25599.1
25599.1
25599.1
18987.2
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3
20215.3 |
| ुतेथ है कि जगर
दस्ते कंगनी के सहस्ते कंगनी के
लिगिटेड, 22
के पास या ईमेल
बसाइट www.w
हांद्र साइय प्राप्त या ईमेल
बसाइट www.w
हांद्र साइय के लिगिटेड
के का पर पुराद
होंगेल 2011,233
होंगेल 2011,235
होंगेल 2011,235
हो राज 2011,235
हो राज 2011,235
हो राज 20, | सी मैर-मटोनी का लाग लेना चाहता है, यह
। नियत आवश्क रसावेज सोमवार, 12 फारवे
वींगदर, यं अंतरा अधिकतां आपते सिंस
वींगदर, यं अंतरा अधिकतां आपते सिंस
वींगदर, यं अंतरा अधिकतां आपते सिंस
गुजा सर्व खेवाकांशे.com पर पहुंच जाएं।
त्राजा कर्ष कर्वा कर रंडील पर कंतरा है हैं
भी एस.के. पावी
कर्जनी संदिय
कर्जनी संदिय
क्रि. भी एस.के. पावी
कर्जनी संदिय
क्र. भी क्र. क्र. कर्जनी
कर्जनी क्र. मार्ग स्वित्त
क्र. मां क्र. क्र. मां क्र.
क्र. क्र. क्र.
क्र. मां क्र.
क्र. मां क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्र.
क्.
क्.
क्.
क्.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क.
क | No. I. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 6. 10. 10. 11. 10. 12. 3. 4. 10. 13. 10. 14. 10. 15. 10. 16. 10. 17. 10. 18. 10. 19. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 12. 10. 13. 10. 14. 10. 15. 10. 16. 10. 17. 10. 10. 10. 11. 10. 12. 10. 13. 10. 14. 10. 15. 10. 16. 10. 17. 10

 | Particulars Total Income from operations (net) Net Profit (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit (before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income (Share of Owners of the Company) Paid up Equity Share Capital (face value of ₹5/, per share) Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date Earnings per share (not annualised for the Quarters and nine months) - abitic (t ₹) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) Paid to the Company (2) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial results of RR (T exception) = babou renudide consolidated financial (T exception) = babou renudide consolidated financial (T exception) = babou renudide consolidate | Cluarter Quarter 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9588.71 9588.71 9588.71 9588.71 7092.57 7495.92 5640.94 6.35 6.33 6.34 estatutory audit ynacemented ("filamented ("filament | r Ended I 1.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vil) 148325.76 9332.52
9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 9332.52 93 | STANDALON Nine Mon 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 29949.44 21854.28 21854.28 25100.87 5640.94 19.56 19.56 19.51 have been prepative expression det there under and party have expression for they arrow finate the expresses be modes respective at the expresses be modes respective at a diverse impact at adverse impact at adverse impact modes respective at a diverse impact modes respective at a diverse impact modes respective at adverse impact modes respective at adv | Image: Normal State Image: Normal State Image: Normal State Image: Normal State <td>Year Ended 31.03.2023 (Audited) 563364.05 25504.74 25504.74 25504.74 18892.85 20416.07 4784.82 95339.93 17.01 16.98 with and com egulation 32 amile review condition free from 23 amile review condition free from 23 amile review condition free from 50 amile cold schampe (including free free from 50 amile) cold schampe (including free free from 50 amile) schampe free free (including free free from 50 amile) schampe free free (including free free free (including free f</td> <td>31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 Plyin all material 4 Sourchies and Source Armony Securities and Source Armony Sistal Armony and ac corordance with Irn approved by the</td> <td>(₹ in) (₹ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.42 Exchange Boa Softer for sale 99.99 Mikha) company Softer for sale optimization to mixe this not neocrainary man ont one company has not neocrainary normal dAS 108 - "Ope to Company BC to Company Exchange Boa</td> <td>BEER, 202 Lakhs excee Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 30035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.64 19.75 19.84 19.64 19.59 Indian Accounter of India (Listiti
ge (BSE) we, f. 2, 877.75 takhs in
company amount es of some of its
evied any commandul arcular suits,
eneil adjustmentr
rating segments sand of Directors,</td> <td>23
pt earning
D
hs
Ended
31122022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
05.50
2392.41
11.22
11.19
05.50
2392.41
1.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
1</td> <td>year End
31.03.2021
(Auditec
563364.0
25599.1
25599.1
18987.2
20215.3
4784.8
95665.5
95665.5
17.7
(17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0</td> | Year Ended 31.03.2023 (Audited) 563364.05 25504.74 25504.74 25504.74 18892.85 20416.07 4784.82 95339.93 17.01 16.98 with and com egulation 32 amile review condition free from 23 amile review condition free from 23 amile review condition free from 50 amile cold schampe (including free free from 50 amile) cold schampe (including free free from 50 amile) schampe free free (including free free from 50 amile) schampe free free (including free free free (including free f | 31 DI Quarte 31.12.2023 (Unaudited) 164576.37 9591.98 9591.98 7095.84 7512.37 5640.94 6.35 6.34 Plyin all material 4 Sourchies and Source Armony Securities and Source Armony Sistal Armony and ac corordance with Irn approved by the | (₹ in) (₹ in) CC r Ended 31.12.2022 (Unaudited) (Refer Note vii) 148325.78 9534.56 9534.56 7143.35 5912.51 2392.41 6.43 6.42 Exchange Boa Softer for sale 99.99 Mikha) company Softer for sale optimization to mixe this not neocrainary man ont one company has not neocrainary normal dAS 108 - "Ope to Company BC to Company Exchange Boa
 | BEER, 202 Lakhs excee Nine Mont 31.12.2023 (Unaudited) 488379.55 30035.67 30035.67 21940.51 25166.03 5640.94 19.64 19.64 19.75 19.84 19.64 19.59 Indian Accounter of India (Listiti
ge (BSE) we, f. 2, 877.75 takhs in
company amount es of some of its
evied any commandul arcular suits,
eneil adjustmentr
rating segments sand of Directors, | 23
pt earning
D
hs Ended
31122022
(Audited)
410327.90
16770.00
16770.00
16770.00
16770.00
12458.40
13905.60
2392.41
11.22
11.19
05.50
2392.41
11.22
11.19
05.50
2392.41
1.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
11.22
1 | year End
31.03.2021
(Auditec
563364.0
25599.1
25599.1
18987.2
20215.3
4784.8
95665.5
95665.5
17.7
(17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
 |

For and on behalf of the Board of Directors **R R KABEL LIMITED**

Sd/ Tribhuvanprasad Rameshwarlal Kabra Executive Chairman DIN: 00091375

WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024

LIC shares close at highest since IPO

ROAD TO RECOVERY

CHIRANJIVI CHAKRABORTY January 30

IT'STAKENALMOST two years but a 75% rally since late but a 75% rally since late March has brought investors who purchased shares of Life Insurance Corporation of India in the nation's biggest initial

Instance Corporation of Initial public offering close to recover-ing their investment. The state-owned life insurer's stock climbed 1.9% on Tuesday, to close at ₹932.75, its highest level since its IPO in May 2022. The climb over the past 1.0 months has coincided with a broader surge in the equities that's added some \$30 billion to LIC's market value. The government raised record \$2.7 billion by selling shares in LIC to investors that included millions of familles that own the company's poli-cies. Concerns over LIC's size, low-profit margins and rigid sales model compared with more agile private peers saw the stock at one point fall more than 40% below its offering price. 40% below its offering price. Gains in the broader equity

ers since March-end malised as of Mar 29, 2023 C HDFC Life SBILife ICICI Prudential Life Max Financial Ser 70 60 50 40 30 20 and the e 10 0 Mar... May Jun I Jul Aug Sep Oct Nov Deci Jan 2023 2024 Source: Bloomberg LIC Intra-day on BSE (₹), January 30 960 921.05 932.75 945 930 1.82 % 915 900 market have been a boon to LIC,

also the country's largest investor with funds of more than \$100 billion. An improved outlook for its premium busi-

AJAY RAMANATHAN

1umbai, January 30

Bajaj Finserv's Mahindra Fin profit up 21% PAT falls 12%

FE BUREAU Pune, January 30

BAIAJ FINSERV ON Tuesday reported a 21% increase in its consolidated net profit to 23,158 core for the December quarter on the back of strong growth in its arm, Bajaj Finance. The group had earned a net profit of 21,782 core a year ago. Total income increased to 729,038 core in the

Totalincome increased to 729,038 crórein the third quarter from ₹21,755 crore a year ago, Bajaj Finservsädi in a regulatory Tilling. Interest income in Q3 increased to Q4 inc

rose to **₹29,038 cr** from ₹21,755 cr a

■ Total income rose to ₹29,036 cr from ₹21,755 cr a year ago ■ Total expenses rose to ₹29,009 cr from ₹17,336 cr a year ago 19% ₹4,536 crore. Excluding bulky tender driven crops and government health business, the growth at a 20% to ₹3,707 crore. Net a crned from thirdividual rated new business premiums and a

trose 13% to <2,3% cftre. It posted a 24% on set in individual-rated new business premiums and a 20% growth in net new business value. Its AUM crossed the ₹1,141lion mark in Q3. Another arm Baja Finserv Health on Tuesday announced it had acquired a 100% stake in Vidal Health Care at an enterprise value of ₹325 crore.</p>

neter interest income, the uniteHitce betWeen interesteamed and interest expended, rose 10%y-o-yto 71,815 crore. The gross loan book rose nearly 26%y-o-yto 797,048 crore as on December 31. The company posted disbursements of 715,543 crore in the December quarter, which aided the growth in loan book.

PAKKA Y

Packaging with PAKKA LIMITED Regd Office: 2nd Floor, 24/57, Birhana Road, Kanpur –208001, Uttar Pradesh Corp Office: Yash Nagar, Ayodhya – 224 135, Uttar Pradesh

- Rego Office: 2hd mout, 24/37, birnant exclose, kanput 200007, ottal maradesh
 Corp Office: vsish Nagar, Ayodhya 224 135, Uttar Pradesh
 CIN: 124231UP1981PLC005294 1 T: +91 5278 258174
 E: connect@pakka.com
 NoTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL. MEETING, CUT-OFF DATE
 AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO THE MEMBERS
 1. The Extin-Offician Vsish Care of the State of the Sta

Date: 30.01.2024 Place: Ayodhya

financialexp.epapr.in

- NSDL lapency for providing the Remote Voting facility and e-voting system during the EGM i.e. https://www.evoting.nsdl.com. Manner of registering fugdating emails addresses: a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (tront and back), PNA (self-altheside scanned copy of PAN card), ADDHAR (self-altheside scanned copy of Aartha Card) by email barmingSkynthar com or gravences@Systineta.com. b)
- Using by binario binaring segments coming granulos granting segments and the second se

- Participants, are requested to register update their email addresses with the Depository Participants with whom they mantain their demait accounts.
 4. Mannet creating vote(s) through =-othing:
 a) Members will have an opportunity to est their vote(s) on the business as set out in the Notice of the EGM through electronic voting system (~e-othing).
 b) The mannet of voting tenole (P (*encle =-voting) by members holding shares in demait erialised mode, physical mode and for members who have not legistated their email addresses has been provided in the Notice of the EGM. The defaults will also be consta-designed be the email addresses has been provided in the Notice of the EGM. The default will also be consta-designed be the EGM and market results will also be consta-designed be the transition of the EGM. The default will also be the environment of the EGM and market results will also be ends and evaluable to the EGM and participant(s), mary generate login condemited by obtain on the stoches ends addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s), mary generate login condemited by following instruction given in the Notes of Notes OFM. Notes with the EGM and participant(s), mary generate login condemited by following instructions for Johning the EGM. Nemeters event and in the Notes of all start time Monday. (PBF-Bohuary, 2024 (300 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (300 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (300 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (300 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (300 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (300 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (300 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (300 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (300 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (200 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (200 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (200 PAM) (both des) fictualwy.), 21 as Fahruary 2024 (200 PAM) (both des) fictualwy.), 21
- for Pakka Limited

Sd/-Sachin Kumar Srivastava Company Secretary & Legal Head FCS No.11111



Muthoot Microfin PAT rises 119% on strong loan growth


MUTHOOT MICROFIN ON Tuesday posted a 119.1% y-o-y jump in its net profit in the December quarter due to a

robust growth in its gross loan portfolio. Net profit stood at ₹124.6 crore, up 13.7% quar-ter-on-quarter (q-o-q).

This marks the company's first earnings disclosure fol-lowing its listing in December. Gross loan portfolio rose

nearly 39% y-o-y to ₹11, 458 crore as on December 31. Net interest income, the differ-ence between interest earned

and interest expended, rose 53.1% y-o-y to ₹343.1 crore, aided by a growth in gross loan portfolio. — FE BUREAU



allottes to provide an provide an exploration of the second of the second of the company and residences of some of its directors and employees. The Company extended it discontration to the income tax officials during the search and provided required details, clarifications, and documents. The Company and residences of some of its directors and employees. The Company extended it discontration to the income tax officials during the search and provided required details, clarifications, and documents. The Company has not neolived any communication from the income tax Company extended the company has not neoliticated and the search and provided required details, clarifications, and documents. The Company has not neolived any communication from the income tax Department reparting the outcome of the search and provided required details, clarifications, and documents. The Company has not neolived any communication from the income tax Neoveer, after conserving uncertained in many many many search and provided required of these financial results. If any, is not assortianable, results for the quarter and nine months ended 31 December 2022.

results for the quarter rain on neither most a succession exc.s. The Company has we reportable segment (respectively) (Wee and cables and 2) Fast-Moving Electrical Goods (FMEG) in accordance with Ind AS 108.–"Operating segments." The Figures of the quarter and rive month ended 31 December 2022, as reported in these unsudied consolidated francial ensults have been approved by the Company's Board Of Directors, but we we by statubor quarter and rive month ended 31 December 2022, as reported in these unsudied consolidated francial ensults have been approved by the Company's Board Of Directors, but we we by statubor quarter sind sense the regulared is shared and ensults have been approved by these of the Company, which was form the quarter ended 3 in the other of the statubor of the stat any, which was from the quarter ended 30 Sentember 2023.

.

For and on behalf of the Board of Directors of R R KABEL LIMITED Sd/-Tribhuvanprasad Rameshwarlal Kabra

Place : Mumbai Date : 29 January 2024



DIN: 00091375

Executive Chairm

analysts' estimates of ₹454 crore. The bottom-line rose 135% quarter-on-quarter (q-o-q). The companys' ro-pt of 328 crore in the Decemberquarter. However, it tell 45% on a sequential basis. As aproportion of ave-rage total assets, credit from 0.7% ayara ago. According to the rosts rose to 1.2% from 0.7% ayara ago. Caccording to the rost cores to 1.2% of the company vent-credit costs os settlea of the current fiscal. The company vent-roses of a stady imp-rovement in asset. Saw q-o-q The company vent-roses constituing at 1.5-1.7% by FY24-end Vent assets are constrained and the former second at 95%, similar to the year ago levels. Net interest income, the difference between interest camed and interest expended, rose 100%